





Ref: ISD/22-23/79

June 08, 2022

The Deputy General Manager,	The Deputy General Manager,
Corporate Relationships Dept.	Listing Dept.
BSE Ltd.	National Stock Exchange of India Ltd.
PhirozeJeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza, Plot No.C/1, G Block
Dalal Street,	Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai-400 001.	Mumbai-400 051.
Scrip Code 532 477	Scrip Symbol/Series-UNIONBANK-EQ

Madam/Sir,

Subject: Submission of Newspaper Advertisement - Notice of 20th Annual General Meeting of the Bank for the FY 2021-22.

Pursuant to Regulation 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, we hereby submit copies of the newspaper advertisement of Notice of 20th Annual General Meeting given to shareholders of the Bank for the FY 2021-22 published in following newspapers on June 8, 2022:

Particulars	Newspaper	Language	Editions
Notice of Annual General Meeting to be	Business Standard	English	All
held on June 30, 2022 at 11.00 AM	The Free Press Journal	English	All
through VC/OAVM	Business Standard	Hindi	All
	Navshakti	Marathi	Mumbai

This is for your information and appropriate dissemination.

Thanking you.

Yours faithfully,

(S. K. Dash)

Company Secretary

Encl: As above



EPFO equity push: Stock returns 2x those of bonds

Retirement fund also invests in CPSE index, which has been a laggard among ETFs

The Employees' Provident Fund Organisation (EFFO), the government's premier retirement fund, is said to be considering an increase in its equity allocation to 25 per cent. It first began to invest five per cent of incremental inflows in continuous contractions of the contraction of the contraction

equities starting 2015; that has since risen to 15 per cent. This comes amid government bond yields staying well below the returns that EPFO pays its bond yields staying well below the returns that EPFO pays its members. Equity returns have been more than twice as much as those on bends over the last few years. The average equity returns for key market indices over the last five years were 18 per cent. The average March-end 10-year government bond yield was less than 7 per cent over the same period.


period.
The latest available data shows

period.
The latest available data shows limited equity exposure. The EPPO had invested around 31.23 trillion in exchange-traded funds. EFPO had invested around 31.23 trillion in exchange-traded funds. EFF) as of FV22. Its debt investments were worth 814.46 trillion. The bulk of the EPPO's investments are in government securities. This makes the 10-year yield a close proxy of the approximate returns in has got over the years. The EPFO announced that in would provide returns of 81 per cent for the financial year 2021-22 (FY22), reportedly the lowest in around 40 years. The 10-year government yield is currently around 7.5 per cent.


Debt market yields have been low, especially since the pandemic's outbreak. Central bankshave reduced borrowing costs by cutting interest rates to support the economy. This has reduced the returns available to investors such as the EPFO. Equity returns have been significantly higher as markets ralligabiler governments used across they adolf provided stimulus to light the adverse effects of the pridemic.

OEPFO Committee than

KEY INDICES SHOW HIGHER EQUITY RETURNS OVER PAST 5 YEARS



PUBLIC SECTOR VS BENCHMARKS



Equity investments deliver-higher returns relative to debt higher returns relative to debt investments even without the situation that Covid-19 created. Academic studies have suggested that equity returns tend to be higher because of the additional risk involved in investing in the share market.

Investors can usually expect a return premium of 4-6 per cent on equity investments compared with bonds, according to a 2003 study entitled, "Long-run stock returns: perticipating in the real

study entitled, "Long run stock returns: participating in the real economy" by Roger G libotson of Yale University and Peng Chen of Dimensional Fund Advisors. "For long-term investors, such as pension funds and individuals saving for retirement, stocks should continue to be a favoured asset class in a diversified portfo-lio," it said.

Not all equity investments are equal, however. The EPPO invests in ETPS that seek to match the equals, bowever, the EPPO invests in ETPS that seek to match the returns of key equity indices. This includes the S&P B&E Sensex and the NifftySO index. Both have delivered high returns. It has also invested in a basket of publics unvested in a basket of publics indice has generated even lower telluris than the bond market over the last five years. In fact, the CPSE index returns have been lower than either the

have been lower than either the Nifty 50 or the S&P BSE Sensex in

Nifity SO or the S&P BSE Sensex in a lou of the last 18 years, according to available data (see chart 2). The EPFO also takes limited exposure to non-government paper. An analysis of data from Bloomberg shows that the highest rated (AAA) corporate debt has consistently generated higher returns than government bonds.

There is an average difference of 30 basis points over the last five years, based on March-end yields. A hundred basis points is one percentage point.

Equity returns are more than II per cent higher on average. The EPFO may eventually have to step outside the two main indices, according to a 2021 World Bank report, titled Asian Provident Funds: Meeting Tomorrow's Challenges by Richard Jackson and Evan Inglis. "Limiting equity investment to ETFs that and Evan Inglis. "...limiting equity investment to ETFs that track the two major domestic market indices may not be opti-mal in the long run. Over time, the EPFO will need to take a the EPFO will need to take a more sophisticated approach to investing in domestic equities. It will also need to consider global diversification of the EPF investment portfolio," it said.

Keep recovery agents at bay by working out repayment terms

In extreme circumstances, file injunction against the agents to prevent them from taking coercive steps

According to recent media reports, a 28-year-old man who took an online loan of 35,000 from an app-based lender was harassed by recovery agents to cough up 42.23 lakh. In a related development, the Maharashtra development reconsists and anotice of the second properties o government recently sent a notice to Google asking it to remove 69 apps suspected of using unethical practices to recover money from

Adhil Shetty, chief executive Adhil Shetty, chief executive officer (CEO), Bankbazar.com, says, "Lenders have the option of initiating recovery in case of defaults, but the Reserve Bank of India's (RBI's) rules clearly stipulate that they shouldn't resort to undue harassment."

What constitutes harassment

What constitutes harassment According to the RRI 'agents can't resort to intimidation or harassment of any kind—verbal or physical. Harassment includes acts intended to humiliate you publicly or intrude into your privacy or that of your friends and family members.

Recovery agents can't

members.
Recovery agents can't make threatening and anonymous calls. Shetty says, "Persistently bothering borrowers at odd hours and use of muscle power for loan recovery qualifies as harassment."

ment."

If recovery agents contact you friends and relatives about you triends and relatives about your debt, try to humiliate you by coming to your workplace or home without intimation, make non-stop calls, contact various public platforms, or pressure you to pay up, they are engaging in acts of harassment. They can also not use obscene or abusive laneurage. obscene or abusive language.

What the RBI rules state

WHAT YOU CAN DO

When an agent contacts you, take down their name, contact details, and particulars of the debt they are calling about

Find out if they represent the bank or a third-party agency

Make a note of conversations including date, time and place; record the call

Inform the agent you are aware of the situation and intend to pay the debt

> If they get abusive, inform them that you will report to the authorities concerned; stop answering their calls in future

File an FIR against the chairman of the company that employs the agent, detailing the threats

Make the agent a party to the FIR (provide their contact details)

▶ Complain to the bank and the RBI

prehensive code of conduct for debt collectors. These guidelines state: "Recovery agents should handle their responsibilities with care and sensitivity, particularly aspects such as soliciting customer information, and conveying the correct terms and conditions of the products on offer, etc."

Financial institutions need to ensure that there is a recording of the calls made by recovery agents to customers, and vice-versa.

versa. Mukul Chopra, senior partner, Victorian

9

MONEY

Mukul Chopra, senior partner. Victoriam partner. Victoriam Legalis-Advocates & Solicitors, says, "If the customer has lodged complaints or grievances, banks shouldn't forward such cases to recovery agencies without disposing of the grievance."
Shetty adds. "Recovery should normally be made only at a centrally designated place. The field staff is allowed to make a recovery at the borrower's residence or place of work only if the latter fails to appear at the central designated o appear at the central designated place on two or more successive

Dealing with recovery agents

recovery agent, get in touch with your lender directly, explain the situation, and try to work out repayment terms.

Utsav Trivedi, pattner, TAS Law says, "File a police complaint, and also file a complaint with the bank, the RRI, or the banking ombudsman."

ombudsman."

I matters go beyond control, talk to a lawyer. Trived; says, "An imported in suit can be filed asy, and imported in suit can be filed significant the bank or financial institution so that it refrains from taking ecercive action against the defaulter."

The lender can't acquire or auction the property or asset kept as collateral without giving a notice of 30-60 days.

lenders
Many companies behind these apps are not registered with the RBI. Gaura-V Chopra, CFO, Indial, ends and founding member of Digital Lending Association of India (DLAI), says, "Check if the lender is an RBI-registered milk, and stay away from platforms that offer something that is too good to be true."

to be true."

Several cases have been reported of apps hacking the devices on which they are installed and gaining access to the contact book and photo gallery on the device.

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank



NOTICE OF 20th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 20" (Twentieth) Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of Union Bank of India ("BGM") of the Shareholders of Union Bank of India ("BGM") will be elded on Thursday, 30" June, 2022 of ±11.00 am (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) facility at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the meeting) to canabact the following business:

Ordinary Business: Item No. 1: To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and Consolidated Batance Sheet of the Bank as at 31" March 2022. Standalone and Consolidated Profit and Loss Account for the year en working and activities of the Dank No.,
Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and
Accounts.

Item No. 2: To declare Dividend of Rs. 1.90 per Equity Share for the
Financial Year 2021-22.

Item No. 3: Raising of Capital of the Bank by way of issuance of fresh Equity Shares and / or by issuance of Additional Tier-1 / Tier-2 Capital as per BASEL III Guidelines The Shareholders are further informed that:

r Shareholders are unmer minormed that:
The Annual Report of the Bank for the year 2021-22 inter alia containing detailed Notice of the AGM has been served by Email only to the shareholders as per MCA and SEBI circulars on? June, 2022.

on? June, 2022

The Annual Report is also hosted on the website of BSE www.hseinda.com and NSE www.nseindia.com

The Annual Report is also nosted on the website of the Bank on the Indiana In

of AGM.

Pursuant to provisions of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 and Nue 20 of the Companies (Management and Administration). Refers, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) which was a second of the Companies (Management and Administration) of the Companies (Management and Management and Man

uch of those shareholders whose names appear on the legister of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/ IDSL as on Thursday, 23rd June, 2022 shall be entitled to anicipate in e-voting.

participate in e-voting.

The remote evoting period commences on Monday, 27 June,
2022(90) am IST) and ends on Wednesday, 29 June,
2022(90) am IST) and ends on Wednesday, 29 June,
2022 (90) am IST). During his period, shareholders of the Bank,
holding shares either in physical form or in dematerialized form,
as on the Cut-Off Date Le, Thirsday, 23 June, 2022 may cast
their vote by Remote E-Voting. The Remote E-Voting module
shall be disabled by Ministed for voting thereafter. Once the
shalle be disabled by Ministed for voting thereafter. Once the
shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall
not be allowed to change it subsequently.

As per the SEBI circular dated 9' December 2020. CDSL & NSDL
circulars' dated 1'December 2020 and 15' December 2020
respectively on e-Victing facility provided by Listed Companies,
individual shareholders holding shares in Demat mode are
allowed to vote through their demat account maintained with

Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email fail their deposite accounts in order to accesse a Volting facility. The facility for evoling shall also be made shall also be made that the time of the ACM and the shareholders participating in the ACM who have not casted their voles by remote evoling shall be able to exercise their right during the meeting through evoling.

their right during the meeling through e-voting. The shareholders who have casted their vote by premote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM but shall not be entitled to cast third vote again. As per Regulation, 10 of the Union Bank (Shares and Meetings) Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the regulater shall, as regards voting, be deemed to be the set in their their off-theries of shares entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the meeting.

on shall be entitled to attend or vote at the meeting as , wo person shall be entitled to altend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Copporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the restolution appointing himfher as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting attwich tiwas passed, shall be sent to infegling is most less than FCUR DAYS before the date of meeting t.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on Friday, 24" June2022.

holding shares as of the cut-off date I.e. Thursday, 23rd June, 2022, shall follow the process and the manner for e-voling given under para no. 16 of the Notice of AGM. If shareholder is holding shares in demail form and had logged on 16 https://evoling.kfintech.com and voted on an earlier voling of any company of bank, then the estimphy passived can be best. Members may particular in the AGM through VCIO/NAI facility by following the procedure as membering passived can be best. Members may particular to the AGM through VCIO/NAI facility of the procedure as members on 10.5 AGM AGM AGM and the Bank way close the warrow of the procedure as the VCIO/NAI facility of the AGM and the Bank way close the warrow for pringing the VCIO/NAI facility of minutes after the scheduled time to start the AGM. To join the VCIO/NAI facility of minutes after the scheduled time to start the AGM. To join the VCIO/NAI facility of Minutes after the scheduled time to start the AGM. To join the VCIO/NAI facility of Minutes after the scheduled time to start the AGM. To join the VCIO/NAI facility of Minutes after the scheduled time to start the AGM and the Bank Ordon the VCIO/NAI facility of Minutes after the scheduled time to start the AGM. To join the VCIO/NAI facility of Minutes after the scheduled time to start the AGM and the Bank Ordon the VCIO/NAI facility of Minutes after the scheduled time to start the AGM and the Bank Ordon the VCIO/NAI facility of Minutes after the Scheduled time to start the AGM and the Bank Ordon the VCIO/NAI facility of Minutes after the Scheduled time to start the AGM and the Minutes after the VCIO/NAI facility of Minutes after the Scheduled time to start the AGM and the Minutes after the VCIO/NAI facility of Minutes after the VCIO/NAI facil

1800.3094-001 III grewances cannected with the facility for voting by electron in grewances cannected to IM D. S. Nagaraja, Dy, Manage hears may be addressed to IM D. S. Nagaraja, Dy, Manage fire Technologies, timed Selemin Budletin, Tower-B, Pich Nacian 1. & 32. Financial District, Nanakramijuda, Serlingampalily dysterabad - 5000.22 or write an email to evoting@kfintech.com call 1800.309.4001

By order of the Board of Direct For UNION BANK OF INDIA

Place: Mumbai Date: 07.06.2022



MINDTREE LIMITED

Registered Office: Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bengaluru - 560059, Karnataka, India. Corporate Identity Number (CIN): L72200KA1999PLC025564 Phone: + 91 80 6706 4000 | Fax: +91 80 6706 4100 E-mail: investors@mindtree.com | Website: www.mindtree.com

INFORMATION REGARDING TWENTY THIRD ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), BOOK CLOSURE DATE FOR FINAL DIVIDEND

1. The Twenty Third Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through VC / OAVM on Wednesday. July 13, 2022 at 4:00

1.The Twenty Third Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through VC (OAVM on Wednesday, July 13, 2022 at 4 00 PMIST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Rolles made thereunder and the Miss made the Companies of the AGM and Annual Report to the Financial Year 2021 - 2022 will be sent to all the Sharcholders in electronic mode whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent (RTA)/ Depository Participant (DP). The notice of the AGM and Annual Report to Transcial Year 2021-22 will also be available on the Company/Swebste, at https://www.mindtree.com/about/investors, Stock Exchanges websites — www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the NSOL's website, at https://www.wcoling.nsdl.com.

3. To receive the Annual report, Shareholders holding shares in physical/denat mode, who have not registered/updated their email address with the Company/RTA/DP, are requested to register/update their email IDs on the following link: https://linkindline.co.in/emailreg/email_register.html, Shareholders holding shares in Demat form who have not registered/updated their email their email address, are requested to update their details permanently with their De

eir email address, are requested to update their details permanently with their DP.

 Shareholders can participate in the AGM through VC/OAVM only. The detailed instructions for such participation has been provided in the AGM Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of quorum in terms of Section 103 on he Companies Act, 2013

Shareholders can cast their votes remotely on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting system.
 The detailed procedure for casting the votes through e-voting has been provided in the AGM Notice.
 The Board of Directors at its meeting held on April 18, 2022 recommended a final dividend of Rs 27/- per equity share of face value or

b. In Bload of Directors at its meeting held on April 18, 2022 recommended a final dividend or Institute (provided in the provided in the p

7. To enable direct credit of dividend to your bank account, shareholders are requested to update their bank details with their Depositor articinant(s) (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (where

ratioppants) (where shares are near in our international plan with the company's registant and share manister Agent (where shares are held in physical mode) in the link. https://inkintime.co.in/emailreg/email_register.html.

8. The Income Tax Act. 1961 as amended by the Finance Act, 2020, mandates Companies to deduct tax at source (105) at the prescribed rates on the dividend paid to its shareholders. Further, as per the Finance Act 2021, section 206AB has been inserted w.e.f. July 01, 2021 wherein higher rate of tax (twice the specified rate) would be applicable on payment made to a "Specified Person" defined under the ions of the aforesaid section

Port The Company is required to deduct TDS as applicable at the time of making payment of final dividend. To enable compliance respect to TDS, Shareholders are requested to complete and/or update their PAN and other documents as prescribed under Incom Act. 1961, by uploading the document in the link. https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html

Additionally, shareholders are requested to visit https://www.mindtree.com/about/investors/lags-tax-deducted-source-tds-divident for more information and instructions on this subject.

10. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them as above and

accepted by the Company. Accordingly, the above referred Final Dividend will be paid after TDS as applicable. 11. In case where shares are held by intermedianes: stock brokers and TDS is to be applied by the Company in the PAK of the beneficial shareholders, then intermedianes' stock brokers will have to provide the details of such beneficial shareholders along with set declaration that the shareholders are the beneficial owners and honce the TDS to be credited to beneficiary PAK as per Rule 378A or

12. This notice is being issued for the information and benefits of all the Shareholders of the Company and in compliance with the applicable Circulars of the MCA and the SEBI

For Mindtree Limited

Subhodh Shetty Company Secretary ACS-13722

00

Place: Bengaluru Date: June 08, 2022







एलआईसी आईपीओ के बाद मई में

डीमैट खातों की संख्या में नरमी

सुंदर सेतुरामन मुंई, 7 जून

ई में खुले नए डीमैट खातों से सरकार के स्वामित्व वाली जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की आईपीओ पेशकश के उत्साहजनक नहीं रहने से इन खातों की संख्या में नरमी आने का संकेत मिलता है। देश की दो डिपोजिटरी – सीडीएसएल और एनएसडीएल द्वारा जारी आंकडों के अनुसार, पिछले महीने करीब 26.5 लाख नए डीमेंट खाते खेले गए थे। यह संख्या जनवरी के मुकाबले करीब 750,000 तक क्रम थी। जनवरी में ३४ लाख नए डीमैट खाते खुले थे। जनवरी से, खुलने वाले नए खातों में हरेक महीने कमी आई है और मई में अप्रैल में मुकाबले मामुली सुधार

कुल डीमैट खातों की संख्या अब 9 48 करोड़ है। एलआईसी के 21,000 करोड़ रुपये के आईपीओ से यह संख्या 20 करोड़ के पार पहुंचने की संभावना थी। 4-9 मई ने 61.3 लाख रिटेल आवेदन हासिल किए। हालांकि उद्योग के कारोवारियों का कहना है कि कई नए डीमैट खाते एलआईसी का आईपीओ बाजार में आने से तीन महीने पहले ही खुल गए थे।

येस सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी ई प्रशांत प्रभाकरन का कहना है वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में पेश किए जाने की संभावना थी, लेकिन इसे इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए टाल दिया गया। खाता खोलने की रफ्तार उससे पहले काफी तेज हो गई थी। बाजार भी तब सरकार को एलआईसी आईपीओ लाने में मदद मिली और इस निर्गम ने निवेशकों नए खाते खोलने के लिए पोत्पादित किया। ज्य खाते पिछले साल दूसरी या तीसरी

तिमाही में खुले थे।' हाल के महीनों में नए खाते खोलने में नरमी मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी फैलने के



गया है।

बाद दर्ज की गई शानदार तेजी के पश्चात आई है। मार्च 2020 और मार्च 2022 के बीच, डीमैट खातों की संख्या 4.09 करोड से दोगनी बदकर 8.97 करोड़ हो गई। हालांकि ये विशेष निवेशक नहीं हैं, क्योंकि कई खास निवेशकों के वि भिन्न ब्रोकरों के पास डीमैट खाते हैं।

बही ताटाट में नए निवेशकों दारा डायरेक्ट इक्विटी निवेश से घरेल बाजार को राहत मिली और उसे विदेशी निवेशकों द्वारा की जाने वाली विकवाली से आई गिरावट की भरपाई करने में मदद मिली।

हालांकि उतार-चढ़ाय बढ़ने से निवेशक धारणा पर दवाव शुरू हो

कुछ का मानना है कि डीमैट खाते खुलने की मौजूदा रफ्तार भी अच्छी है। लेकिन उनका कहना है कि कई निवेशक उतार-चढ़ाव बढ़ने की वजह से सक्रियता कम दिखा रहे हैं। 5पैसा कैपिटल के मुख्य कार्याधिकारी प्राकर्ष गगडानी ने कहा. 'पिछले तीन महीनों से बाजार एकतरफा रहे हैं। कई स्मॉलकैप और मिडकैप (जिनमें ज्यादातर

होटे निवेशक दिलचस्पी दिखाते

हैं) 20-30 प्रतिशत गिरे हैं। जब बाजार कमजोर होते हैं, छोटे निवेशक निवेश करने से परहेज करते हैं। वर्ष 2021 के दौरान बाजार में नए निवेशकों जैसी दिलचस्पी बरकरार नहीं रह सकती है, लेकिन और अधिक नए डीमैट खातों के खुलने का सिलसिला बना रहेगा।' निपरी मिडकैप 100 सूचकांक मई में 5.3 प्रतिशत गिरा, जबिक निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 18 प्रतिशत का उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया और पिछले महीने इसमें

10.2 प्रतिशत का नुकसान हुआ।

, डीमैट खातों की संख्या 4.09

फिनटेक का शेयर टूटा मुंबई, ७ जून

पॉलिसीबाजार और पैसा वाजार पोटंल का परिचालन करने वाली कंपनी पीबी फिनटेक का शेयर मंगलवार को कारोबारी सत्र के दौरान 15 फीसदी तक दूट गया जब कंपनी के चेयरमैन व सीईओ यशीश दहिया ने 37.8 लाख शेयरों की बिकवाली की।

यह शेयर अंत में 11.5 फीसटी यशीश दहिया, चेयरमैन एवं की गिरावट के साथ 582.8 रूपये

पर बंद हुआ, जो नवंबर में सूचीबद्धता के बाद एक दिन की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। पीबी फिनटेक का शेयर कारोबारी सत्र के दौरान एनएसई पर 556 रुपये के निचले स्तर को छू गया था, जहां 638 करोड़ रुपये के शेयरों का कारोबार हुआ। स्टॉक एक्सचेंज के दिस्क्लोजर से पता चलता है कि दहिया ने 37.7 लाख शेयर (0.84 फीसदी हिस्सेदारी) 610.2 रुपये प्रति शेयर पर बेचे, जिसकी कुल कीमत 230 करोड़ रुपये रही। बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि संस्थापक की तरफ

से इतने ज्यादा शेयर वेचने का फैसला ऐसे समय में लिया गया जब पीबी फिनटेक का शेयर अपने सर्वोच्च स्तर से आधा रह गया है, जो निवेशकों की अवधारणा पर चोट पहंचा रहा है।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि शेयरों की बिक्री एम्पलॉयी स्टॉक ऑप्शंस प्लान (इंसॉप्स) पर कर



सीईओ ने बेचा हिस्सा, पीबी

सीईओ, पीबी फिनटेक

पीवी फिनटेक ने एक वयान में कहा, शेयरों की विक्री पर पूंजीगत लाभ कर के अतिरिक्त इंसॉप्स की विक्री पर भी कर भुगतान किया जाता है, ऐसे में 37,69,471 शेयरों की विक्री का इस्तेमाल मौजूदा व भविष्य के कर भुगतान में किया जाएगा। पीची फिनटेक का शेयर इस साल करीब 40 फीसदी नीचे है। इसकी तुलना में सेंसेक्स में 7 फीसदी की गिराबट हुई है। कंपनी का

भूगतान की खातिर रकम जुटाने के

आश्वासन कि पीबी फिनटेक में दिहया की हिस्सेदारी समय के साथ बढ़ेगी, पर इससे बिकवाली नहीं रुकी।

पीजी फिज्ञेन के ६ ४३६ मजेट प्राणे के आरंपिय सार्वजनिक निर्गम को निवेशकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी और कुल मिलाकर 16 मुना आवेदन हासिल हुए थे।इस आईपीओ में 3,750 करोड़ रुपये नए शेयर जारी करके जटाए गए थे जबकि 1.875 करोड़ रुपये की द्वितीयक विक्री थी। आईपीओ में शेयर 980 रुपये पर जारी हुए थे। सुचीबद्धता के कुछ ही दिनों के भीतर स्टार्टअप शेयरों को लेकर उल्लास के चलते कंपनी का शेयर 1,470 रुपये तक चढ़ गया था।

हालांकिअमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ाहामारी के बाद प्रोत्साहन पैकेज वापस लेने के फैसले से स्टार्टअप शेयरों में गिरावट आने लगी. जिनमें से कई सिर्फ भविष्य में ही आय सुजित कर पाएगी।

मई में आईटी पर रहा दबाव

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा मई में की गई विकवाली की वजह से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेक्टर पर ज्यादा दवाव देखने को मिला। आईआईएफएल सिक्योरिटीज द्वारा कराए गए विश्लेषण के अनुसार, वैश्विक निवेशकों ने पिछले महीने 5.15 अरब डॉलर मूल्य के शेयर बेचे, जिनमें अरब डॉलर की विकवाली आईटी शेयरों में

आईटी के बाद, बैंकिंग वं वित्तीय सेवा और एफएमसीजी में सर्वाधिक 1.55 अरब डॉलर और 66 करोड़ डॉलर की सर्वाधिक निकासी दर्ज की गई। तेल एवं गैस शेयरों में 46 करोड़ डॉलर की विकवाली दर्ज की गई। बैंकिंग ऐंड फाइनैशियल सेवाओं और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कछ समय से भारी विकवाली देखी गई है। एफपीआई आवंटन के संदर्भ में ये दो सबसे बड़े क्षेत्र भी हैं। पिछले 6 महीनों में, बैंकिंग एवं सेवा क्षेत्र में 10.34 अरब डॉलर जबिक प्रौद्योगिकी सेक्टर में 7.13 अरब डॉलर की विकवाली दर्ज की गई। आईटी सेक्टर में लगातार 9 महीनों से एफपीआई की विकवाली देखी गई है। आईटी में एफपीआई निवेश घटकर 12.7 प्रतिशत रह गया है जो पिछले साल दिसंब में 15.4 प्रतिशत था। अब आईटी में एफपीआई आवंटन 12 प्रतिशत पर है।

विश्लेपकों ने आईटी शेयरों में विकवाली को अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गजों की शेयर कीमतों मे गिरावट के प्रभाव के तौर पर करार दिया है। हालांकि उनका कहना है कि उनके अमेरिकी समकक्षीं और नैस्डैक में कमजोरी की वजह से भारतीय आईटी शेयरों को लेकर चिंता करने की कोई वजह नहीं है। इ

अप्रैल में 273 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज

(पीएमएस) योजनाओं में से 211 ने निफ्टी-50 से बेहतर प्रदर्शन किया। इन योजनाओं का

रिटर्न औसतन -0.15 फीसदी रहा, जो बेंचमार्क के -2.1 रिटर्न के मुकाबले बेहतर है।

जिन योजनाओं ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया

उनमें अवस्था फंड मैनेजमेंट (10.6 फीसदी), इक्विट्री कैपिटल एडवाइजर्स (9

फीसदी) और हेम सिक्योरिटीज (8.9 फीसदी) शामिल हैं। यह जानकारी पीएमएसबाजार के आंकड़ों से मिली।

उम्दा प्रदर्शन वाली पीएमएस योजनाएं



'अमेरिका और भारत में आईटी शेयरों का विजनेस , ोफाइल काफी अलग है। दूसरी वात, घरेलू आईटी कंपनियों को रुपये में गिरावट का लाभ मिलता है, जब कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयर डॉलर विनिमय दर में बड़ी वृद्धि से नुकसान में रहते हैं। नैस्डैक अब आय में करीब 40पीर्ड के आसपास कारोबार कर रहा है. जबकि भारत में शीर्ष-5 आईटी कंपनियों में से चार कंपनियां 18 से 29 गना के दायरे में कारोबार करती हैं और वित्त वर्ष 2022 में सबसे बड़ी कंपनी ने 33 गुना (वित्त वर्ष 2021-22 की ईपीएस के संदर्भ में) र कारोबार किया। ' सकारात्मक बात यह है कि लॉजिस्टिक शेयरों में

34 करोड़ डॉलर का पूंजी प्रवाह दर्ज किया गया। इसे काफी हद तक डेलिवरी के 5,235 करोड़ रुपये के आईपीओ से भी मदद मिली थी। यह आईपीओ एलआईसी के बाद वर्ष का दूसरा सबसे बड़ा निर्गम था। इस निर्गम को विदेशी निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया हासिल हुई। लॉजिस्टिक सेक्टर में एफपीआई आवंटन 1.6 प्रतिशत पर है और यह सितंबर 2019 से अपने चरम स्तर पर पहंच गया है, विक वाहन शेयरों में एफपीआई आवंटन मई में बढकर 5.2 प्रतिशत पर पहुंच गया. जो अप्रैल. 2022 में 4.7 प्रतिशत पर था।

निफ्टी से बेहतर रहीं ज्यादातर पीएमएस योजनाएं

येहतर प्रदर्शन किया।

लाजंकैप योजनाओं (औसत रिटर्न -1.53

फीसदी), मल्टीकैप योजनाओं (-0.47 फीसदी) और स्मॉलकैप योजनाओं (2.75

फीसदी) ने अपनी-अपनी श्रेणियों में उम्दा

फीसदी) ने निफ्टो मिडकैप 100 इंडेक्स से

एक साल के आधार पर ग्रीन पोर्टफोलियों का

सुपर 30 (146.3 फीसटी), काउंटर साइक्लिकल इन्वेस्टमेंट्स का लॉन्ग-टर्म वैल्यू

(107.7 फीसदी) और राइट होराइजन की

आरबीआई के दखल से रुपये को संबल

पृष्ठ 1 का शेष

युक्रेन यद्ध के कारण फरवरी के अंत में भारतीय मुद्रा पर दवाव बढ़ता देख केंद्रीय चैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में अपना हस्तक्षेप बढाया है। उसने हाजिर, वायदा और ऑफ-शोर तीनों सेगमेंट में रुपये की गिरावट थामने का प्रयास किया है। अप्रैल में आरबीआई ने हाजिर बाजार में रिकॉर्ड 2 अरब डॉलर की विकवाली की, जिससे पता चलता है कि रुपया कितनी

2022 में डॉलर की तुलना में रुपया 4.34 फीसदी और चालू वित्त वर्ष में 2.5 फीसदी लुढ़क चुका है। मई में आरबीआई के हस्तक्षेप के बावजूद इसमें 1 फीसदी की गिरावट आई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि केंद्रीय बैंक मुद्रा में तेज गिरावट नहीं होने दे सकता। आरबीआई अक्सर कहता रहा है कि वह बाजार में उतार-चढ़ाव को थामने के लिए हस्तक्षेप करता है और रुपये को किसी खास स्तर पर रखने का उसका लक्ष्य नहीं है।

आईएफए ग्लोबल ने एक नोट में कहा है कि कच्चे तेल के दाम में तेजी, विदेशी निवेशकों की ओर से विकवाली, डॉलर के मजबूत होने और अमेरिकी बॉन्ड के प्रतिफल में इजाफे से भारतीय मुद्रा पर दबाव बने रहने की आशंका है।

उम्दा प्रदर्शन वाली योजनाएं रहीं। इन योजनाओं के रिटर्न की गणना टाइम वेटेड

रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर की गई। पीएमएस

20.3 लाख करोड़ रुपये, नॉन-डिस्केश्नरी पोटंफोलियो में 1.7 लाख करोड़ रुपये और सलाहकारी सेवाओं के तहत 2.1 लाख करोड़

रुपये की परिसंपत्ति का प्रबंधन हुआ। यह जानकारी बाजार नियामक सेबी के ऑकड़ों

6.38

6.27

स्मॉल व मिडकैप

मल्लीकैप

स्मॉलकैप

मिडकैप

ऐश्ली कटिन्हो

लाग नही

43.06

35.04

61.20

एचडीएफसी बैंक ने उधारी दरें बढ़ाईं

सुब्रत पांडा मुंबई, ७ जून

देश में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने अपनी सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर (एमसीएलआर) में 35 आधार अंक तक का इजाफा किया है। यह दर वृद्धि 7 जून से प्रभावी है। वैंक मई के शुरू में मोद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा रीपो दर 40 आधार अंक बदाए जाने के बाद से अपनी एमसीएलआर में 60 आधार अंक तक का इजाफा कर चुका है। पिछले महीने ऋणदाता ने अपनी एमसीएलआर में 25 आधार अंक तक की वृद्धि की थी।यह वृद्धि एमपीसी द्वारा रीपो दर

एचडीएफसी बैंक द्वारा उधारी दर में 35 आधार अंक की यह वृद्धि एमपीसी की बैठक से एक दिन पहले की गई है

. एचडीएफसी बैंक द्वारा उधारी दर में 35 आधार अंक की यह वृद्धि एमपीसी की बैठक से एक दिन पहले की गई है। 6 सदस्यीय एमपीसी द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत दर बढ़ाए जाने की संभावना है। 18 मई को एचडीएफसी वैंक ने सभी अवधियों की (2 50 आधार अंक तक वढा दी थी. 5 साल 1 से 10 साल की श्रेणी को छोड़कर।

विजनेस स्टैंडर्ड द्वारा अर्थशास्त्रियों के सर्वेक्षण में उम्मीद जताई गई कि एमपीसी रीपो दरें फिर से 50 आधार अंक तक यहा सकती है। सर्वे में शामिल 10 में से 6 विश्लेपकों ने 50 आधार अंक की वृद्धि का अनुमान जताया, जबकि शेष ने कहा कि यह 35-40 आधार अंक के बीच हो सकती है। पिछले सप्ताह एचडीएफसी लिमिटेड आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नैशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया समेत कई अन्य ऋणदाताओं ने अपनी एमसीएलआर में इजाफा किया था। एचडीएफसी ने 1 जुन से आवास ऋण

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank



20 वीं वार्षिक महासभा बैठक, लेखाबंदी एवं ई-वोटिंग की सूचना

द्वारा सबना दी जाती है कि यनियन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) के शेयर धारकों की 20 वीं ्रितारी) वार्षिक महातमा बैठक पूर्णपार्च का कुर्णपार्च का कुर्णपार्च का कुर्णा के किया कुर्णा कुर्णा के किया कुर्णा कुर्णा कुर्णा किया कुर्णा कु

मद संख्या 1 : 31 मार्च. 2022 को लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित तल-ारीख को समाप्त वर्ष के लिए स्टेंडअलोन और समेकित लाभ और हामि खाता, 'सेरवॉ में कवर की थी अवधि के लिए बैंक के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पन और नेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अभि

मद संख्या 2 : विशीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रति इंकिटी शेयर रू. 1.90 का लागांश घोषित

अतिरिक्त टियर— 1 /टियर—2 पूंजी को जारी करने के माध्यम से बैंक के लिए पूंजी की जुटान शेयरधारकों को आगे सूचित किया जाता है कि: वर्ष 2021-22 के लिए बैंक की वार्षिक रिवोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साध-साथ एजीएन की

- सचना को एमसीए और सेबी के परिपत्र के अनुसार शेयरधारकों को 07 जन, 2022 को केवल
- वार्षिक रिपोर्ट बीएसई www.bseindia.com एवं एनएसई www nseindia.comकी वेबसाइट परभी उपलब्ध है यार्थिक रिपोर्ट बैंक की देवसाइट पर निम्न लिंक https://www.unionbanko
- india.co.in/english/aboutus-investor-annualreports.aspx प
- वार्षिक रिपोर्ट ई-वॉर्टिंग रोवा प्रदाला की वैवसाइट .https://evoting.kfintech.com

यह भी सूचना दी जाती है कि -

- शेयलपारकों का रस्तिस्टर और बैंक की शेयर ट्रांसमय बुक एजीएम के प्रयोजन के लिए शुक्रवार, 24 जून, 2022 से गुरुवार, 30 जून, 2022 (होनों दिन सम्मिरिल) तक बंद
- हम. (वे (पुर्काददात व्यक्तिय एवं प्रमर्शाव ग्या अवश्यकताओं) के विशिव्यम 2015 के विशे 14 क्षण कंपनी (क्षणन एवं वश्यकता) विषम, 2014 के नियम 20, वया संशोधित कंप प्रकार एवं प्रशासन) प्रशोधन नियम, 2015 के प्रशासनों के अनुस्थल में कैंक र विश्वकार के एरिक्स के विश्वकारी अस्तुत संश्यमों पर हतेयद्वीचित्र माध्यम से बीद हैने -[बोटीय की सुविध्यक्षतान की गई है
- । यस्धारकों को एजीएम के पूर्व निर्धारित स्थान से अलग इलेक्ट्रॉनिक ई-बोटिंग) द्वारा वोट देने की स्विधा के-फिन टेक्नोलोजील प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक) ई-बॉडीं) प्राथ को देवें में शुप्तिक ने निवार क्लोनीबीड प्राप्टे निर्माद (क्लीनदेव) प्राण दावका कर्ता क्ली के शायकड आप को देवें के हिए हैं -बॉडिंग केसावूट https://evoling.klintech.comपर.स्वीन कर समते हैं ऐसे केसावक, क्लिके का प्राप्ताहंत्व ही बॉडिंग्याव्य इस्त प्राप्तावक हिंदिकीकर्त सम्बों के करा में केसावकों के निवार हैं हैं इंग्लिंग के इस्त के समान केसावकों के निवार हैं हैं
- 8-व प्रश्निक हो प्राप्त करना लालपुर्वाच्छा । पिरार है व्यक्ति के के विकास हुए उन्हुं 2, 2022 (प्राप्त : 9,00 वर्ष के आर्यूप्ताही) स्व प्राप्त के का कुमान, 29 जुन, 2022 (प्राप्त : 5,00 वर्ष के अर्थपूर्वाही) एवं एते हुए हैं अपनी के हुए के निकास को विकास को विकास कर कि व्यक्ति के स्वाप्त हुए व्यक्ति हुए व्यक्ति हुए के अर्थान पुराप्त हुए व्यक्ति हुए के प्रश्निक हुए कि व्यक्ति हुए के प्रश्निक हुए
- रोबी परिपन्न दिनाक छ दिसावर 2020 रविजीएरगएन एवं एनएसजीएल परिपन्न दिनाक । हिरकर 2020 एवं 15 हिराबर 2020 बागार के अनुसार, सूर्वायद्ध कारियों, येजनिक शेरवयानका द्वारा धरीत शेवर इं वेटिंग की सूर्विधा बाले डिपोर्टाटियों एवं डिपोर्टीटर्स परिकारिया के साथ हरकरार रखें पर उनके हिमंद खाते के माध्यम से डिपोर्ट मोड में येट कर

अपने डिमेट खाते में मोबाइल नं. ऑर ईमेल – आईडी को अर

- –चोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध न्हेगी और इस बैठक में उपल्बिल वे शेवर धारव पने ई–चोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के द्वारा अपना वोट
- दिल शेक्सकरको ने एजीएन से पहले हिनोह हैं- वोहिंग के दाश अपना वोह है दिया है. वे पं
- जिन अध्यासका ने प्रात्माप से पहले निर्दार है जाता का क्षा अपना बाद वे दिया है, वे भी प्रियोप में पाने संस्थात है, प्राप्त वे देशाता वादिक कर सकेने यूनियन बेंबर (अंधरी एवं बेंटवर्ड) विरोधानन के विनित्म 10 के अनुसार, यादि कोई शंकर दो वा अधिक प्रात्मित के नाम प्रात्मेशन हैं, हैं, तो तीन्दरन में दित्यका नाम प्राप्त में प्राप्त पर अधिक होंगा, वह बेंद दे देने के लिए, प्रशास अनेकार धारक माना जाता प्रदान प्रमान पर प्रीप्त धारकों के नाम सर है, तो केवल प्राप्त मानिय जाति हैं बेंगुरू में भाग रहने वच अधिकारी होंगा और वहीं बोट देने कर भी अधिकारी होंगा
- करानी या कोई निकास, निमम, को बैंक का शेवरपारक है, के विधिकत प्राह्मिश्त श्रीतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, बैंक्क में प्रसारियत रात्ते या बोट देने के लिए सब राक पात मंदी होगा। एक रात प्रत्नी विधिका प्राधिकृत प्रतिनिधि के रात्रा में नियुक्त करने का सकरण उस बैंक्क के अगटास द्वार प्रमाणित सर्पार्थिन, दिसमें यह सकरण प्रिति किया मात्र हो, को पर बैंक्क की निधि से कम से कम बार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, 24 जून, 2022 को कार्य-समाप्ति अर्थात सक 5.00 बजे तक या उससे पूर्व प्रस्तुत नहीं किया क्वा है
- 5.00 प्रवेश का माउरारो पूर्व प्रस्कृत मंत्री विभाग जाता है ... की स्वीत प्रकार का कारता है ... की स्वीत प्रकार के कारता है ... की स्वीत प्रकार का कारता है ... की स्वीत प्रकार का मेहरायार कारता है ... की स्वीत सारी का अपनी मुख्यार, 23 पूर्व 2022 वह ते हैं तथा मीत्र स्वात है, को पूर्वांच्या के गाउ प्रकार 16 के अनुस्वर है ... मीत्रित की प्रकार मात्रित की सार करने हैं ... मेहरी की आपने का नहीं की सार मात्रित की मात्रित करने हैं ... मेहरी की आपने मात्रित करने हैं ... मेहरी की मीत्र मात्रित करने हैं ... मेहरी की मीत्र मात्रित करने हैं ... मेहरी मात्रित करने हैं ... मेहरी की मीत्र मात्रित करने हैं ... मेहरी मीत्र मात्रित करने हुं ... मेहरी मीत्र मीत्र मात्रित की प्रतिवृद्ध मात्र में ... मेहरी मात्र मात्र मात्र में ... मेहरी मात्र मात्र में ... मेहरी मात्र में ... मेहरी मात्र मात्र मेहरी मात्र मा
- our me see west बट कर सकता है तीर्ती / क्रोकीरामा में पूर्व के जिल्हु कामा नीर्देश के का 16(vii) मार्गित विकारों के साथ https://emeetings.kfintech.com से पुढ़े के का से पूर्व का के की तीरान सकतीयें सकती किसी स्वाधन के पित गोल की किस्तावात कामा
- ये शेयरधारक जिल्होंने अपना इंगेल आईडी पजीवृत गरी किया है, वे देवनिक weblink https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobilee mailreg.aspx મેં અપની ટ્રેન્મેલ આફેલી એપ મોલાફલ નવર પાળીવૃત્ત ભરતે છે. લાદ
- एर्नेएम के दोला स्मित् हैं -बहिन एवं पेटिन के समेरिक परिदान, जाववारी की समेविक रिवोर्ट के स्वयं के की केस्पाहर www.unionbankolindia.co.in नव केरिकारिक की देवराइट https://evoing.kfintech.com प्यापीतमा परितान होने का सावाबत एक्टका का दिए जाएंगे साथ है, पीटान मुगन स्टाफ एक्सकेट की

i, https://evoting.kfintech.com या उपलया अवस्य पूछ जाने याने प्रश "FAOs") और ई-मीरिय मैन्युअल का साम्यं ले सकते हैं या 1800 309 400 । सबस्य मीरिकर सकते हैं

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते यूनियन बंक ऑफ इंडिया

हरता/= एस. के. दाश

परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी स्टैटिजी श्रेणी रिटर्न (फीसटी) एक साल अवस्था फंड मैनेजमेंट मल्टीकैप डक्किटी कैपिटल एडवाइजर्स डमर्जिंग ऑपरच्यनिटीज रमॉलकैप 904 39.23 हेम सिक्योरिटीज इंडिया राइजिंग एसएमई स्टार्स स्मॉलकैप 8.96 थीमेटिक ग्रीन पोर्टफोलियो सपर 30 गीन पोर्टफोलियो दिविदें व सीलव शीमेटिक 7.77 ग्रीन लैंटर्न कैपिटल एलएलपी स्मॉल व मिडकैप गोथ फंड 6.69 46.20

इलेक्ट्रम लॉरेट पोर्टफोलियो

इंडिया ऑपरच्युनिटीज प्रॉडक्ट

रयोसल

स्रोत : पीएमएसबाजार

डक्विटास इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी

असित सी मेहता इन्वेस्ट, कंसल्टेंसी

रीन पोर्टफोलियो

E-AUCTION SALE NOTICE

EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LTD. CIN: U67100MH2007PLC174759

CIRI: DE TRUMPIZOUPIL L'ESTA
Regal Central & Regal. Office: Écélevois Plouse. Off CST Road. Kalina, Mumbai 400098

E-AUCTION SALE MOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE SECURED ASSETS UNDER THE
SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITIES
INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISO TO RULE 8 (9) & 9(1) OF THE SECURITY INTEREST

[ENFORCEMENT] BUILLES 2002 - PULLES")

The faced Edited STIPA Analysis of Security Crists has been assigned at Edelewis Asset Reconstruction Company Limited as
in capacity in history of EARCH TRUSTS OF 11 and EARCH 199755-5098 and entered drugh in channel drugh for them should be added to the company of the Company Limited as a security of the Company Limited as a security of the Company Limited as a security of the Company of the Company Limited as a security of the

SI.	No	Name of Borrower I Co Borrower	Name	Name of Eank & Branch, Account Number & IFSC Code	Total Outsta- nding Dues INR as on 06.06.2022	Price	Earnest Money Deposit (EMD) in INR		Possessi
1	1564307 [690-0006469] Dewan Housing Finance Corporation Limited	Sangeeta Baban Jadhav (Borrower) Baban G Jadhav (Co-Borrower) Palesh Baban Jadhav (Co-Borrower)	FARC-	ICIGI Bank Ltd., Nariman Point; 600405118304; ICIC6600004	₹ 34.01,643.15-	₹ 10,20,0000- (Rupees Ten Lakhs Twenty Thousand Only)	1.02 600/-	28-06-2022 & 10:00 AM	Physical

2	LMUMLAP 0000008409 (Edelweiss Retail Finance Ltd)	1.Mr. Subir Chakrevorty (Borrower) 2. Ms. Sonali Chakravorty (Co borrower) 3.Carbontree Emission Management Pvt. Ltd.(Co Borrwer)	TRUST-	ICICI Bank Ltd., Nariman Point; 600405120240; ICIC0000004		₹ 2,00,00,000F (Rupees Two Crore Only)	[Hupees	25-07-2022 § 11-00 AM	
---	--	--	--------	--	--	---	---------	--------------------------	--

83	Important I	nformation regarding Auction Process:
1	All Demand Brafts (DD) shall be drawn in	favor of Trust name as mentioned above and payable at Mumbai.
2		Received 1 day prior to the date of auction
3	Place for Submission of Bids	1st Floor, Edelweiss House, off CST Road, Kalina, Mumba-400098
4	Place of Auction (Web Site for Auction)	E-Auction (https://auction.edelweissarc.in)
5	Contact Persons with Phone Nos.	Ajay Kumar (Mobile No. 9567945407) Maya Patel (Mobile No. 7715825175)
6	Date & Time of Inspection of the Property	As per prior appointment

⊕ Edelweiss | As



LT.M.G. HOSPITAL, SION, MUMBAI -400 022

No. LTH/2038/T Dated 06.06.2022

E-TENDER NOTICE

This is an E-Tender Notice. The Commissioner of Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) invites e-tenders as given below in three Packet systems.

The Name of the work: Adult Patient Warming System (01 Set) for General Surgery Dept of L.T.M.G. Hospital.

S. N.	Description	E-Tender Price (Rs.)	EMD (Rs.)	Start date & Time for online Bid Downloading	End date & Time for online Bid Submission
1	Adult Patient Warming System (01 Set) for General Surgery Dept of L.T.M.G.	Rs. 600 + plus GST	Rs. 115000/-	08.06.2022	20.06.2022
	Hospital. with CMC for five years after the completion of warranty of three years. Bid No. 7200032372	@18%		04.00 pm (16.00 hrs.)	04.00 pm (16.00 hrs.)

The intending tenderer Shall visit the Municipal Corporation website at http://www.mcgm.gov.in for furthe details of the tender.

The tender documents will not be issued or received by post.

L.T.M.G. Hospital, Sion

PRØ/483/ADV/2022-23

Keep the terraces clean, remove odd articles/junk/scrap.





NOTICE OF 20th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 20° (Twentielth) Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of Union Bank of India ("Eank") with bettle or Thursday, 30° June, 2022 of 11.00 and (ST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAMI) facility at Central Office. Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the meeting) to transact the following business:

Ordinary Business:

Item No. 1: To discuss, approve and adopt the Audided Standalous and Consolidate Balance Sheet of the Bank as a 31" March 2022.

Standalone and Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Bank of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Audions' Report on the Balance Sheet and

Item No. 2: To declare Dividend of Rs. 1.90 per Equity Share for the Financial Year 2021-22

Special Business

Special Business: Item No. 3: Raising of Capital of the Bank by way of issuance of fresh Equity Shares and I or by issuance of Additional Tier-1 / Tier-2 Capital as per BASEL III Guidelines The Shareholders are further informed that:

- The Annual Report of the Bank for the year 2021-22 inter alian containing detailed Notice of the AGM has been served by Email only to the Africa as per MCA and SEBI circulars on 7 June, 2022
- an? June, 2022

 The Annual Report is also hosted on the website of BSE www.bseindia.com and NSE www.nseindia.com

 The Annual Report is also hosted on the website of the Basik on the Collowing link https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-in-westor-annual/erports.appx

 The Annual Report is also hosted on the website of evoting service proceed hittps://websitek.infracts.com

ce is also given that -

- The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Friday, 24" June, 2022 to Thursday, 30" June, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.
- of AGM.

 Pursuant to provisions of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disciouser Requirements). Regulations. 2015 Agmit Agmit Market Programs (Agmit Agmit A
- lembers/Beneficial owners as furnished by NS Thursday, 23" June, 2022 shall be entitled
- The remote e-voting period commences on Monday, 27° June, 2022(9:00 am IST) and ends on Wednesday, 29° June, 2022 (5:00 pm IST). During this period, shareholders of the Bank in IST). During this perfect, aster-another with a shares either in physical form or in dematerialized form is Cut-Off Date i.e., Thursday, 23" June, 2022 may cast e.by. Remote E-Voting, The Remote E-Voting module disabled by Kintech for voting forerate. Once the idea casts his vote on a resolution, the shareholder shall
- As per the SEBI circular dated 9. December 2020. CDSL 8 NSDL circulars dated 11° December 2020 and 15° December 2020 card stated to the researching on e-Voting facility provided by Listed Companies, individual sharenditers holding snares in Denat mode are allowed to vote through their demail account maintained with

itories and Depository Participants. Shar d to update their mobile number and email Id hts in order to access e-Voting facility.

- The facility for e-voting shall also be made available at the tir tine AGM and the shareholders participating in the AGM-who not casted their votes by yremote e-voting shall be able to exe their right during the meeting through e-voting.
- The shareholders who have casted their vote by remo prior to the AGM may also participate in the AGM but entitled to cast their vote again.
 - entitled to cast their vote again. As per Regulation 10 of the Union Bank (Shares and Meetings) Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voluge, be deemed to be the sole holder thereof, Henne if shares are in the names of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the
- necessing.

 10. No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body. Cerporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/ther as a duly authorized representative, cerified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passes, shall be sent for info@jimja. Inno.
- 24" June 2022.

 Any person, who accurres shares of the Bank and becomes shareholder of the Bank after sending the notice by e-mail and holong shares as of the cut-off date i.e. Thursday, 23rd June, 2022, shall follow the process and the manner for e-voting given under para no 16 of the Notice of JGM. If shareholder is holding shares in demait form and had logged on to https://evoting.kintech.com and voted on an earlier voting of any company of Bank, then the existing password can be used.

 Memches may participate in the AGM through VCO/CAM facility by following the procedure as mentioned in the Notice which shall
- Members may participate in the Asha unusupir vacanization to by following the procedure as mentioned in the Notice which shall be kept open for the shareholders from 10.45 AM (BTS) i.e. 15 minutes before the time scheduled to start the AGM. To join after the scheduled time to start the AGM. To join the VCIOAVM please usel https://emeetings.kfintech.com with his credentals as mentioned in the notice para no. 15(m) of AGM Notice. The helphine toll fire on 1000/304001 may be used for assistance with the technology before or during the meeting. The Shareholders who have not registered their email of participate in the AGM effect registering their email ID and mobile participate in the AGM effect registering their email ID and mobile participate in the AGM effect registering their email ID and mobile participate in the AGM effect registering their email ID and mobile participate in the AGM effect registering their email ID and mobile participate in the AGM effect registering their email ID and mobile participate in the AGM effect registering their email ID and mobile participate in the AGM effect registering their email ID and mobile participate in the AGM effect registering their email ID and mobile participate in the AGM effect registering their email ID and mobile participate in the AGM effect registering their email ID and mobile participate the AGM effect registering the email ID and mobile participate the AGM effect registering the email ID and mobile participate the AGM effect registering the email ID and mobile participate the AGM effect registering the email ID and mobile participate the AGM effect registering the email ID and mobile participate the AGM effect registering the email ID and mobile participate the email of the AGM effect registering the email ID and mobile participate and the AGM effect registering the email ID and mobile participate and the AGM effect registering the email and emaile the AGM email the email to the AGM effect registering the email the emaile the
- pariopate in the AGM after registering their email ID and mobile in numbers in the weblink hitsp://iris.kintech.com/ clientscrvices/mobilereg/mobilecenailreg.aspx. The consolidated reads to 8 Females E-Voling and Voling during AGM alongwith the regist of the Scrutinizer shall be praced on the website of the East is a view unionbankoffendia coli and on the vebsite of the East is a view unionbankoffendia coli and on the vebsite of the East is a view unionbankoffendia coli and on the vebsite of the East is a view unionbankoffendia coli and on the vebsite of the East is vebsite of the East is a vebsite shall also be immediately for exacted to the Stock Exchanges.

ase you have any queries or issues regarding e-voling ir the Frequenty Asked Questions (FAQs) and e-volin lable at https://e-voting.kfintech.com under help sect 1800 309 4001.

1800 aw 4001 grevances connected with the facility for voting by electrons hans may be addressed to Mr. D. S. Nagaraja, Dy. Manager in Technologies Limited, Selenium Burlding, Tower-B. Pilo: Nos 6. 32. Financial District, Nanakramguda, Serlelingannayli gerabad - 500032 or write an email to evoting@klintech.com

Place: Mumbai Date: 07.06.2022

By order of the Board of Direct For UNION BANK OF INDIA

S. K. Dash Company Serre

GOVERNMENT OF INDIA Ministry of Finance, Department or Financial Services

MUMBAI DEBTS RECOVERY TRIBUNAL NO. 2

TM Buldina Colaba Market, Colaba Mumbai 400 005, Ph. 2266 5473, Fa.

INAL APPLICATION NO. 442 OF 2021

Vs SANJAY CHANDAN SAHA

DEFENDANT WHEREAS the above named Tribunal for recovery of a sur-reliefs mention therein.

WHEREAS the service of su whereas the openior whereas are application of substitution of the first production of the first p

Seal of the Tribunal Seal

SANJAY CHANDAN SAHA, Lokmanya Apariment, Room N. Near Ganpati Tec Lokm, Thane 400 605. And also at Sun Sin Infra. Shop No. 17 B. Vegas Pl Nr. Alhant Plaza, Ovala Naka Thane - 400 607.

APPENDIX IV
[See rule 8 (1)]
POSSESSION NOTICE

LOSS OF SHARE - CERTIFICATE
Public Notice

wington Road). Mumbai cent 1008, and holding office no. r. in the building of the s while Navivan Co-of House had irgued attribut states.

r.N.har N. Jambusaria, Mr imbusaria, and Mr. Rakesh. I lieu of the original share-

nature from damants and objections if distantiologications are hereby called using the lens. Gen. Secretary of Nayi Commercial Persistes Coop. Society of Nayi Commercial Persistes Coop. Society (Nayi Office no. 19, on 14th floor, Dr. DB. In Mumbha - 40000, Sturre globe, Dorary 15 days from the date of this public no along with the original share-centificate evidence in support their of between 1 to 15. Offirm. If no damant objections consistent within the prescribed time conditions the society of conditions of the control of conditions of the control of conditions of co

Windraw .

The Authorized Officer of EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION .

LIMITED (FEARCY) (CIN.UST100MY2007PLC174759), under the Secure and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security links 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with the Security links (Enforcement Silks - 2002 state) Demand McIsch Security links (Enforcement Silks - 2002 state) Demand McIsch under the Borrowers SMITA S AJMERA , RAJEEV U. we seem properly Act, the Security Interest of Development of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 sessed Demand Nicke dised 20.212.021 citing upon the Borrowers NITA S AUMERA, A NALEY U AUMERA AND SANIAY U AUMERA to repay the amount mentioned in the Nokice being 4.66,6.26.251 (Interes Forty Lahn). Styly St. Thorstand Two Hundred Styly Five and Palse Twenty Eight Only) as on 17.12.2021 against Loan Account 10. HILLOW0015738 and indirect thereon within 60 days from the date of receptor the salendose.

he said notice. The Borrower having failed to repay the amount, Borrower and the public in general that the und possession of the property described herein below in thirm under Sub-Section (196 Section 13 of the interest (Enforcement) Rules, 2002 on 06.06.2022.

he Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to dea with the progenty and any dealings with the property will be subject to the charge of delevers a Saset Reconstruction Company Limited as Trustee of EARC Trus SC 432 for an amount 740,66,265.28 (Rupees Forty Lakhs Shity Shousand Two Nundred Shity Five and Palse Twenty Eight Only) as or 17,2923 and interestations on 17.12.2021

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY FLAT NO. H18504 SALEABLE AREA OF 731 SQ FT, INDIABULL'S GOLF CITY
NEAR KHALAPUR TOLL NAKA, MUMBAI PUNE EXPRESS HIGHWAY
SAVROLI, RAIGAD, RAIGARH, MAHARASHTRA-410101.

Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited Trustee of EARC Trust - SC 432



TATA COMMUNICATIONS
TATA COMMUNICATIONS LIMITED
Regd. Office: VSB, Mahatma Gandh Road, Fort, Mumbai – 400 to
Tat: 91 22 6659 1066 Cin No.: 1.64200MH 1989PLC039266
Email: investor-relations/glatacommunications.com

Email: investor-felations@fatacommunications.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE
E-VOTING INFORMATION ND BOOK CLOSURE
E-VOTING INFORMATION ND BOOK CLOSURE
Notice is hereby given that the Thirty-Sixth (35°) Annual General
Meeting (AGM) of Tata Communications Limited (the Company)
will be held on Wednesday June 29, 2022 at 11'00 hours 15't
transact the business, as set out in the Notice of AGM. The
Company has sent the Notice of AGM along with the link to the
Assured Integrated Annual Report for the financial year 2021-20 on
Monday, June 6, 2022 through electronic mode to Members whose
email addresses are registered with the Company/Depositories in
accordance with the circulars issued by Mindisry of Corporale Allians
and December 14, 2021 and the circulars issued by the Securities
Exchange Board of India dated May 12, 2020, January 15, 2021
and May 13, 2022 are available on the websites of the Company
at www.bsandisc.com. National Securities Depository
Limited (1802) at www.escing.nsgl.com. BSE Limited at
www.bsandisc.com and National Gicck Exchange of India Limited at
www.bsandisc.com and National Gicck Exchange of India Limited at
www.bsandisc.com and National Gicck Exchange of India Limited at

www.nseindia.com.

Members are requested to note that pursuant to section 91
Companies Act 2013, and Regulation 42 of the SEBI (t
Obligations, and Disclosure Requirements) Regulations,
Record Date has been fixed at Monday, June 13, 2022 an
observation of the Section of the Se

entillement of dividend.

The Board of Directors has appointed Mr. P.N. Parikh (Memb. No. FCS 327) or failing him Mr. Mitesh Dhabiwala (Memb. No. FCS 337) or failing him Mr. Sarvard Shah (Membersh FCS 9879) of Mrs. Parikh & Associates, Practising Conscretaries, as the Scrutinize to scrutinize the 4-volting durin AGM and remote e-Volting purious in a fair and transparent m.

AGM and remote e-Voling process in a lair and transparent manner In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies (Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management ann Administration) Rules, 2014 (as manneded) and Regulation 40 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulation, 2015 and the Secretarial Standards on General Meetings (TSS-27) issued by the Institute of Company Secretaries on India, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of AGM using the electronic voting system (remote e-Voting and e-Voting) provided by NSDI. The voting rights of Members shall be in proportion to the shares hold either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e., Wednesday, June 22, 2022.

Country in prysical cent of in considerable form is 0 in the cut-off data ie. Wednesday, June 22, 2022. Detailed procedure for remote e-Votingle-Voting during the AGM is provided in the Notice of AGM. The remote e-Voting period commences on Saturday, June 25, 2022 (9.00 a.m. IST) The remote e-Voting period or Tuesday, June 25, 2022 (9.00 a.m. IST). The remote e-Voting module shall be disabled by MSDL thereafter. The Members who have cast their vises by vernote extended the modern and the control of the control person can use their existing User ID and password for casting vote: For further details relating to remote e-Vosing, please refer to the Notice of IAGM. In case of any queries, you may refer the Frequent Asked Questions (FADS) for Shareholders and e-Voting use manual for Shareholders available at the download section or www.everieng.actic.com or call on the Id-free numbers 1800 102 990 11800 224 430 or send a request to Ms. Sarifa Mote c Mr. Sagar (Guhante et reveningeris) can.

node for any technic .e., NSDL and CDSL.

Login Type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in	Members may contact NSDL helpdest by sending a request at
Demat mode with NSDL	
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members may contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or

For Tata Com

IN THE COURT OF SMALL CALSE MUMBAI L. E. & C. SULL NO 46 OF 2021. barali Merchanl, Ago 71 Years) lat No 87. Monalisa Agl., St. John Baptist Road. Bandra (West), Mombia 400050.

andra (West), Mumba 460050

Defendant showcamed,
WHEREAS the Phainfill above named has instituted the suit against II decidendin praying that the Defendant may be ordered and decreed to have the total passibility and the Defendant may be ordered and decreed to have the total passibility and the Defendant may be ordered and decreed to have the comparison of the said unit is often of a Building down as Networks Building D. Montes Servet: Hear Phot cit. Bandra (West). Mumba: 400050 and said building structure which under a size of the said to the said of the said the

Dated: 10.05.2022 Place: Mumbai.

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given to at the concerned that my clients, than at Cooperative Bank, (Marcha) Ltd. having than registered Critica at Mahan Torrison, (6472, Morly Street, Mahan Torrison), than 140 (101 and amongst others Branch at Namb Danis, Marcha Mahan Torrison, Marcha Mahan Torrison, Marcha Mahan Torrison, Marcha Mahan Torrison, Marcha Mahan Mahan

aid banks he said agelicants.
And Applicants have expresented to my clients that Ms Vasikli Kurwerji Gasta has foot and amplicants have expresented to my clients that Ms Vasikli Kurwerji Gasta has foot and ampliced the original registered Deced of Safe dated 23 of 1.95% executed where Highting Services Pst. 10.1 the removal need to the Vendors and Fluorophylmers benefined the Pruchasers along with stamp duty paid recipit, lodging recipit and more in the past of an application of the safe pst. In the past of the pst. In the pst. of an original to televisit in the pst. or and in pst. original to the cell care and the pst. or and the pst. or and the pst. or and the pst. or cell care and marked belief to the very december.

Inco. Clear and markeable fellion or sand gremness.

Any presents hump any dim an indirected for in any interest in the said premiser
or in the conjustilité decessi documents in respect of the said premiser
or in the conjustilité decessi documents in respect of the said premiser
mortigage, assignment, charge, trust, liers, prossession of gli, indirection, maintent
tenancy lease, easternet or chémicae honners is herety required to marke the's
tenancy lease, easternet or chémicae honners is herety required to marke the's
tonoriem white plot in outrestiers présent publicae fellement de l'ant de chémicae le
tonoriem value plot in outrestiers présent publicae de l'antique d'autrestiers présent se l'autrestiers publicae de l'autrestiers présentés autrestiers.

It fellowation d'apresses autres l'existence d'aire noutres des présentés autrestiers autrest

Sdi-Dr. Naveen Kumar Poojary Advocate High Court. A:501, Fifth Floor, New Gagangin CHS Ltd. Opp. MCF Joggers Park, Eksar, Bonvali (West), Mumbai – 400 092

FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Se struction of Financial Assets and Enforcement of Ser

302 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Scowly Interest (Enforcement) Rules, 2002 strued Demand Notice dated 121.22021 calling upon the Bencency BERLANA FARMA OURESH AND FARHAN QURESHI to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 2.28, 266.76 (Rupees Newsty Two Labhs Eighty Eight Thousand Two Hundred Sixty S. And Paise Seventy Six only) against Loan Account for HHLVSH00391445 as on 26.11.2021 and interest thereon within 60 days from the

date of receipt of the said Notice terest (Enforcement) Rules, 2002 on 06.06.2022

not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of MOIABULES HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of the 2.248.266.26 (Rupees Twenty two Lakes Epiloy Eight Thousand Twe Hundred Sixty Six And Palse Seventy Six only) as on 26.11.2021 and witeres

BHK FLAT NO. 404. ON 4TH FLOOR, BUILDING 'B8', ADMEASURING 31,48 ARPET AREA, IN "ARIHANT ARSHIYA", SITUATED AT VILLAGE DAHIWALI ALUKAKHALAPUR, DISTT. RAIGAD, MAHARASHTRA.

सञ्चानी अधिकारी, कांग्रे सार्यास्त्र (म.ज.का १६०० के बता १९५६, का म.स.स. १६६० में शिवान १०० अवन्ये.) है पेड्रिट्टा का में आई ब्राह्म है, जोता शांत्र को और होतींका सोवायती है. मुक्त कार्यास्त्र में रामक देश मान्य होता था सार्थक को अर्था होतींका सोवायती हैत. वी. व. दुःव मार्त, अंते अत्र स्त्रों, दुक्त मार्ट, मुंबर्ट, ४००० व्टरे

जाहिर तिताव बोटीस कबाकीरार वांचे जाव व पता | प्रॉपर्टी (मिलकत) था पता व हुनर माहिती

प्राईस रक्कर स. ९,१८,७५,५००/ रअसरी रु. त.इ. व.टी । मुखंड क्र. ९ की. (Sub Plot No. ९ B) मेर मर्वरण विमारतेल को-क्रीर सोरापरी

क्षण जाता है। इ.स. कार्योपीयों जा करीवारा कारत कीराव रहेता त्यांक करीवित दार्थण व्यवस्था के के किया कारता कर क १६ आवार कार्या कार्या कार्या कीराव में भाग है। कार्या कीराव कीराव कार्या कार्या कार्या कार्या कीराव कीराव कीराव कीराव कीराव कीराव कीराव कार्या कार्या कीराव कीराव कीराव कीराव कीराव कीराव कीराव कीराव कार्या कीराव कीराव कीराव कीराव कीराव कीराव कीराव कीराव कर कार्या कीराव कर कार्या कर कार्या कर कीराव कीराव कीराव कीराव कीराव

Place : Mumbai Date: June 7, 2022

Zubin Adil Pal

The spirit of Mumbai s now 93 years old!

FREE PRESS JOURNAL

www.freepressiournal.in

जाहीर सूचना

पाहीर सूचना
पहा प्रांचा प्रधान व्यवना वृद्धना
वेश्वा प्रकार प्रधान व्यवना
प्रधान के ती, प्रकार अस्ति प्रकार अस्ति ।
प्रधानंत्र हिमार १५ आंद्रेस, १००० ।
रिशेष्ण व्यवना आर्थित हिमार १५ आंद्रेस, १००० ।
रिशेषण व्यवना आर्थित हिमार १५ अंद्रेस, १००० ।
रिशेषण व्यवना आर्थित हिमार १५ अंद्रेस, १००० ।
रिशेषण व्यवना १५ अर्थित ।
रिशेषण व्यवना १५ अर्थित ।
रिशेषण व्यवना प्रविद्या अर्थित ।
रिशेषण व्यवना प्रविद्या अर्थित ।
रिशेषण व्यवना प्रविद्या ।
रिशेषण व्यवना विद्या ।
रिशेषण व्यवना प्रविद्या ।
रिशेषण व्यवना विद्या ।
रिशेषण व्यवना ।
रिशेषण व्यवना विद्या ।
रिशेषण व्यवना विद्या ।
रिशेषण व्यवना विद्या ।
रिशेषण व्यवना विद्या ।
रिशेषण व्यवना ।
रिशेषण व्यवना ।
रिशेषण विद्या ।
रिशेषण व्यवना ।

अदलाबदल, गहाण, बक्षीस, विश्वस्त वारसाहक, निर्वाह, धारणाधिकार अदलास्ट्रस्ट, गहल, अशील, विशयन, यासाइड, निर्देश, धारणांध्यस्य, सुर्विकास, अदलास्ट्रस्ट, करण आ अव्य करणाव सीरीमा ह, १९,१९७ (१९१४), १९६८/१/३ चा पाण्या मात्रमांचित १३६.०० भी. ती. या या एकास, मातृक्य सीरीमानी, मुंद्री इत्यस्य किंद्रस्ट सम्बंधी आस्यास्य, पार्ट्डी विचित्त पर्ट्याची विस्तास्यार्ध्यास्य पार्ट्डी विचित्त पर्ट्याची विस्तास्यार्ध्यास्य वित्त, पार्चित्र प्र. १९६३, साली सीरीमोर्ग पार्ट्ड आस्थार्थित (१९.) मुख्ये १९४०६१२ क्यो सहस्यार्थ्यास्थ्रम् १९९४मान १८००६१२ घंचे महत्त्व सार्यमान्त्र १ १ हानास् स्थित कारणाणी आसरकार आहे १ अन्यस्, अशा कोणत्यारी राज्यस्या संदर्भतियान परिणित्य मिळकतीतील त्याचे मान्त्र्य समार्थिका आहे हिस्ताकारण्या । स्त्र् समार्थिका आहे सार्व्यस्थाती आपना समार्थिका अहंपाल आहेरी हिर्णीक कर आणि दाना असरचास, अधिराधाणे पेत्याचे समार्थिका देशित परिणित्य स्वर्थानिक परिणित्य

समज्ञ्यात चेहेत ज्योदिक्वित परिशिष्ट ज्योदे या तक्षाता सर्व भाग विश्व आहे, यसलेला आणि असा याव एकसा, तालुका योधियती, मुख्ये प्रथमता विल्हायच्या विल्हाम योखील असा मोधियम ४, २५० (साले क्र. ११५/१/) या भाग) मोजयाधिय ११९,०० ची. मी. या त्याप्रमाणे

जाहीर सूचना

त्यादीर सूचता
त्याम अश्रेल चाइंग सूच्या रंगात यो की आजीत तिर्वाच परितिश्वल वॉक्शिंग्या
पंपास ("परिमा") वांता में, पृथमित एवं को को आजीत तिर्वाच परितिश्वल वॉक्शिंग्या
पंपास ("परिमा") वांता में, पृथमित एवं का के मा मुत्रम मी, आजो ("आमचे
अमित") को वांचापिका आजो तिर्वाच करिक शांतग्यामुमा मर्वा जन्नी नराम आगात्रक, ज्ञान, अमित्रम करिक शांतग्रामुमा मर्वा जन्नी नराम आगात्रक, ज्ञान, अमित्रमाकन, वांता, प्राप्ता, मित्रम् वेद साध्यान, मुक्ता कुकाब्यित, आगात्रक, अपन, विकास, प्रध्मान, मुक्तिमित्रमा,
विकास, प्रमान, कुकाब्यान, माम, अरताव्यत, को, आदेत विकास
प्रमान, विकास विकास मार्गी (क्षेत्रमात्रक) सम्मान विकास
क्षेत्रमात्रकी शांत्र किना मार्गी (क्षेत्रमात्रक) सम्मान विकास
क्षेत्रमात्रकी शांत्रकी को मार्गी (क्षेत्रमात्रक) सम्मान विकास
क्षेत्रमात्रकी शांत्रकी किना मार्गी (क्षेत्रमात्रक) सम्मान को विकास वास्त्रक प्रमान का स्वाची को प्रमान किना स्थान स्वाची का स्थान को किना को स्थान प्रमान स्याची को प्रमान किना के स्थान के स्थान को स्थान को विकास वास्त्रकी स्थान स्थान आपनी असा त्रक, पास्ती किना स्थान के त्रा स्थान किना की स्थान स्थान साम्याक अर्थाल विकास के स्थान के त्रा स्थान के त्रा स्थान के स्थान के स्थान स्थान साम्याक अर्थाल विकास स्थान स्थान के त्रा स्थान के स्थान किना का स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान स्थान साम्याक अर्थाल वास्त्रकी साम्याक के त्रा स्थान के स्थान का स्थान का स्थान के स्थान कर स्थान के स्था

आंग्रेस सर परिसार्य क्रम्पेय आणि निर्मित्य साम्या मारावान मेतीरा आणि आपये आंग्रेस स्वरंद प्रसार्थ आग्रेस आणि प्रसार्थ साम्याये साम्याय सेंद्रस स्वरंद अस्तायां से साम्याय सेंद्रस स्वरंद अस्त्रस्थ साम्याय सेंद्रस स्वरंद अस्त्रिक संतित्र प्रसार अस्त्र स्वरंद स्वरंद अस्त्र स्वरंद स्वर

सही/-कु. अनुजा केडिया भाग मेससं परिणाम लॉ असोसिएटस्कॉ ४ था मजला, एक्स्प्रेस टॉयर्स, नरिमन पॉईट, मुंबई-४०० ०२१



पर्द माद्रा, परिला परता, २०/१२, पुंबई सवाचा वार्ण, पोर्ट, पुंबई-४००००५ पहारापू, भारत, ईमेल : sembranch2.mms@bankoBaroda.com

युनियन बँक 🕼 Union Bank 8 E



२० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुक क्लोजर आणि ई मतदानाची सूचना

महार्ग करावित्यान वेते थी. जुनियन बंध और हिंदिश ("वेंक") मांच्य धाराधारकार्यों १२वी (वित्यापी) पार्थिक मर्वाधारामा सभा मृत्यान, १० जून, १०२२ होते महाराजी १३.०० पाता (भार्योग प्रापाय चेतुनामा) हिंदिओं कोक्तारीमा सूर्विश (देखेंनी) / अन्य धारावाधारमा कुरुकारण साधारी (श्रीप्ट्रीया) चारण माण्यानान, सुनियन वेंक अत्त हरिया पांचे कपारानी बार्यानाम सुन्हें हेंचे (1 केंद्रीयीचे मानीव दिवस्थ आहें) जातीन पुजाने नाहु केंद्रालय विश्वास कर्यों कपारामारी होता। आहें.

विकाय प्रस्तावाः । अपूर्वसावः ३ - जन्माने सम्प्रमा वर्णः कानः आर्थि/शिवा वेशलः III वर्णादांत्रात्र्याणे अपितिक देशान-१ त्रीवा-१ वर्णायनः वर्णाः कान्य वेशले प्राप्तावन वादायणे, समाध्यात्रात्रात्रपुरं कार्याव्याप्यात्र के की । १. सम्बन्धाः आर्थाः समाध्याप्यात्रात्रम् समाधिकः अत्यात्रात्रात्रात्रात्रम् सम्बन्धाः सम्बन्धाः स्वाप्ताः समाधिकः अत्रात्रम् समाधिकः स्वाप्ताः समाधिकः समाधिकः

अनुतार केवार प्र केनारण बाध्यावान चार्डविषया अस्ति आहे. वार्षिक अन्वातः बीएन्ट्रिया www.bscindia.com आणि एन्एम्ट्रिया www.nscindia.com क्षत्रेयमांट्राय मुख्य टाण्यस आहे. वार्षिक अन्वार वेके स्वत्रेयस चे

www.nscindia.com का वेण्यादेश्य मुख्य प्रश्नात अर्थ वर्गीव ज्याचा वेच वेच संकारक के प्रमाण वर्गीव https://www.union/bankofindia.co.in/english/ahontus investors - annualreports.aspx का विकास प्रशास अर्थ, अर्थिक अर्थाचा है क्याचा है कहा प्रशास के प्रश्नात कर के स्थास के मंग्रिक अर्थाचा है क्याचा है कहा मुख्य के प्रशास के स्थास के https://evo.ling.kfmirch.com को प्रशासन अर्थ हो संकारक प्रशासन के स्वीत के स्थास कर के स्थास के स्थास के स्थास के संकारक प्रशासन के स्वीत के स्थास के स्थास के स्थास के स्थास के स्थास के संकारक प्रशासन के स्थास के स्थास के स्थास के स्थास के स्थास के स्थास के प्रशासन के सामान्य की स्थास के स्थास के स्थास के स्थास के स्थास की स्थास के अर्थाव्या सम्यापना की स्थास के स्थास के स्थास के स्थास की स्थास के स्थास की स्थास की स्थास की स्थास के अर्थाव्या सम्यापना की स्थास की स्थास की स्थासित की स्थास की

तान. मधामर त्यांची यांव प्रमामहोगल - मोहीणमण्ड धार्वा माहा केलिका लाधारी व्यक्तिया वर्णीत/मधामर रंप्ट पृथ्तिक मुख्यम, ४३ जूब. २०४४ गेळी नोहलेकुन बील केवड अमे सभागर रंप्ट पृथ्तिक महधाम प्रथम प्रथम प्रमास

अवस्थित के प्रति होता है । स्वर्गत के प्रति है । यून , १२२० वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग । अस्ति के प्रति है । स्वर्गत के प्रति । स्वर्गत के प्रति है । स्वर्गत के प

. एवंगच च्या दारावाद देखीत इ महरान मुस्पिग प्रथमच बरून देखात पेगार आहे. आणि असे माध्यापादाद जाती महंगावाण चैदकील्ली दूरवा इ महादा प्रक्रियों आतंत्र करून माहदाना कर बनावतीनंत्राची आणि वे सर्वसाचारा चैदकील्ला उपनिता आसाति हुन ते माधादा सर्वसाचाराचा चैदकीत इ स्मादान प्रक्रियों अस्तात करून आणि माददाना सम्बाद बहार इंच्याता. ज्या माधादाती प्रदीस पूर्वी दूराब इ महरान प्रक्रियेचा अस्तात करून माहदानाचा इक बहारावीता हो आगे सामानद एवंगिए ता प्राधित ग्रह शकतात मात्र त्यांना पुना माददान

का कु स्वरंति ।

श्री का से हर्ग के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के अवसंत्र करून करहे कर वा स्वरंति ।

श्री का से हर्ग के प्रदेश के प्रदे

पाँचार, प्रभाव १६ (३) वार्य व्युर् घेत्रांच्या प्रेवितिकात यांचा प्रशाव परूप प्रशाव १८ वार्यों, का स्टामार विज्ञा कांग्रची स्वावाच्या प्रथम स्वराचीत मारिती विज्ञान्यामार्थी हेण्य स्वावाद्वी होत्याच्या १८ ८०१ १६ ५५ ६ १६ १६ १६ १० वार्या कांग्रद्ध कांग्रस्थ कांग्रद्ध कांग्रस्थ कांग्रद्ध कांग्रस्थ ट्रस्थ है एक्टर आणा वार्षक रूपनायाण को रायान हमान हमान हमान हमान किवात, छाननी अधिकारणांका अर्थावातामः चैकेरी क्षेत्रकरक www.unionbankofindia.co.in और केरिकरोक पाँच मेंचेनाच्य https://evolump.kfintect.com केर्य किवात वार्यक्र कार्यक्र हमान चरणान चेतिन सर्वात नावर्रात्व एक्टराक्ट सम्बंद वार्यकर्ड अप्रेषित वस्त्रमान

डर्गमः । मन्द्रप्रश्चित्रप्रस्था महर्भाव आपराण वाह्यारी गाँव। अससील वर्षः आपण्य https://evoting.kfintech.com चैत्रं देण महराव एवं क्रिकेटची आपवा क्ष्यां क्ष्यां देणाव व्यक्ति क्ष्यां व्यक्ति अस्यव क्ष्यां क्ष्यां व्यक्ति क्ष्यां विकास क्ष्यां क्ष्यां विकास क्ष्यां विकास क्ष्यां विकास क्ष्यां विकास क्ष्यां विकास क्ष्यां क्ष्यां विकास विकास क्ष्यां विकास क्ष्यां विकास विकास क्ष्यां विकास विकास क्ष्यां विकास विकास क्ष्यां वि

फ्लेमिंगो अधिवासाकरिता मनपाकडून डीपीएस लेक संरक्षित

वार्ताहर/नवी मुंबई

पताहर नचा नुषड़ फ्लोमंगो शहरातील जेव विविध्वता सखण्यातील महत्त्वपूर्ण विकासत नवी मुंबई महापालिका (नवी मुंबई मनपा) ने नेरूळ बेधील ३० एकर पसरलेल्या डीगीएस लेक पाणवळ क्षेत्राचे संवर्धन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यावरण प्रेमींकडन आलेल्या शिफारसी मान्य करत एनआर आणि टीएस चाणक्य या जुळ्या पाणधळी संवर्धनासाठी पालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरीत कराव्यात यासाठी सरकार आणि सिङकोकडे नवी मुंबई मनपा पत्रव्यवहार करणार आहे. पाणधळी ताव्यात घेऊन त्यांचे संवधंन करण्याच्या नाटकनेक्ट फाऊंडेशनच्या शिफारसीला प्रतिसाद देताना नवी मुंवई मनपा आयुक्त अभिजीत वांगर म्हणाले, डीपीएस लेक हे फ्लेमिंगो अधिवासाचे क्षेत्र असून त्याचे संवर्धन करण्यासाठी वीएनएचएससोवत एकत्र काम करण्याविपयीची बोलणी पालिका प्रशासनाने सुरू केली आहेत.

चीएनएचएस संशोधन अहवालानसार नवी मंचर्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (एनएमआयए) आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) साठी वन्यजीव शमन उपाय म्हणन पाणधळ वाचवण्यासाठी नाटकनेक्टच्या वर्तीने नवी मुंबई मनपाकडे अगोदर लेखी विनंती सादर करण्यात आली होती. एनआरआय-टीएस चाणाक्य जलस्त्रोतावर पाणथळ असल्याचा शिक्कामातंत्र झाल्याने आग्ही वीएनएचएस अहवाल आणि मुंबई उच्च न्यायालय निर्णय प्रत सुपूर्व केली होती, अशी माहिती नाटकनेक्टचे संचालक वी. एन. कुमार यांनी देली. डीपीएस लेकचर सुमारे ५,००० फ्लेमिंगो उत्तरतात, असे चीएनएचएसची अलिकडची आकडेवारी दर्शवते, चीएनएचएसकडे विविध पक्षी आणि अन्य वन्यजीवांच्या महितीचा मोटा खिजना आहे आणि त्याचा लाभ ध्यायला आवंडल, असे आयुक्त वांगर म्हणाले. पाणथळ संवर्धनासाठी मँग्रोव्ह सेलची मदत घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.

जाहीर सूचना

и. ø.	या मानि त्यांना बाद्दारे सूचित करण्यात येत आहे. कर्तदार/सह-कर्तदार/हमीदाराचे नाय/कर्त खाते क्रमांक (डीएचएकएल ज्ने एलएएन आणि आयसीआयसीआय नयीत एलएएन) आणि पत्ता	अंमलबजावणीयोग्य मता/ तारण मतेच्या मिळकतीचा पत्ता	सूचना पाठवित्याची तारीख़/ सूचनेच्या	एनपी तारीए
ŧ.	सर्वेसव चंद्रभाव वावभासे/ सुशीला सर्वेसव वावभासे/ पर्लट नं.१०, दता कृषा वीक्षणसास्त्रतः १-४४, सेवटर-६, खांद्रा कलियी, वर्गाव पर्वतेस, महासप्ट, मुंचर्ट- ४२०२०६/	पत्तेर इ. १०८, १ता मजता, पीस पार्क, डेरिक्तो मान, औराम बेरिराजवळ, जुका पुणे मुंबई महामार्ग पर्वास्त, सहाराष्ट्र, कर्मा मुंबई- ४१०२०६	जारखेम धकवाकी एप्रिल ३०,२०२२ २, ६,२८,४५४/-	30/27
₹.	(११६०००१२४२) जन्नेवर्याण्यीमान०००५०२४२१५) शोधना महेन प्रत्यपती/ महेनामाई एखलेडभाई प्रतासती/ ए ००६, अनुएव निन्दित, एक्सी इस्टेंट, मस्तिद चली, इन मंदिर रोड, विशाय प., महाराष्ट्र, पालग्रा-४०१३०३/ (१११००००६६०८/ जन्नुवर्याकाराकार०००५०३८८८५)	क्तरेंट क्र. १०२, १ला मजला, दी बिंग, नेसले हाईट, श्रेयम इलिसमीर, जीवदानी गेंड विदार पूर्व, महाराष्ट्र, टाणे- ४०१३०५	एप्रिल ३०,२०२२ ४. २३,०६,१७७/-	30/01
₹.	सुभेग लहुन पाँडे/ अनुष्या मुख्य पाँडे/ चले? वे. १६३ डी. १ ला मन्नता. न्यू शिवआणीम मामावरी, आयोले रोड, आयोले शॉस्पिटल नालामांचारा पूर्व, पहचारू, नालामांचार- ४०१ १०६/ (७२९००००१९१०/व्यूडेडवरीयम.आ०००००५९१९६६)	फ्लंट फ्र. १६. ३श धजला, एमएमध्यमद्वीए कर्यचार्ग निवित्तंत्र सीएचएम, राजा जिलाजी शाखेच्या बाजूला, डॉन लेन, महाराष्ट्र, जालासोपास (पूर्व)- ४०१३४९	एप्रिल ३०,१०६२ ३, ८,०३,४३७/-	30/01
٧.	सूर्यकांत्र के सूर्वे/अपार्ध सूर्यकांत्र सूर्वे/अव्हाण आळ, बांट्रेकर याडी, साल रत्त बाबा मेरितववळ, ऑम रत्त विश्व और्याचरी पू., महाग्रार, मुंबई- ४०००६०/ (७२५०००१३८०६/ वसूत्रेहरुर्ताएसआय००००५०३६०३१)	फर्तट् नं, ३०४, ३४ मजला, सी विग, इमारत क्र.५, सेन्टर-III, साई दीप प्लाडा सीएचएमएल, यसवत विशा टाऊनरिण, लिक सेड, महाराष्ट्र, नालामोपारा (पूर्व) – ४०१२०६	गप्रिल ३०,२०२२ इ. २५,०८,५४४/-	30/0
٧.	विजय शामगुव सिंदे/ वैशाली विजय सिंदे/ पलेंट नं-१५, तिसमा मजला, वो विंग, गीरी टॉवर, बेंटुरबर पाडा, स्वामी समर्थ मेरिराजयळ, छाडक पाडा, कल्याण(५.), महाराष्ट्र, टाणे- ४२१ ३०१/ (०६९००००४०९१/ चयुरेडकेएलयाय००००५०४०००९)	पर्लेट क्र. ६०१, ६घा मजला, विग बी, ग्रांती प्लाइत, हनुमान महिरासमंत, अग्रवाल कॉलेजच्या ताजूला, कोर्जावली, गांधार कल्याच पश्चिम, महाराष्ट्र, डांचे-४२१३०२	ण्यिल ३०,२०२२ इ. ११,४७,१७८/-	34/2
ξ.	विकास अर्जुन अर्दाटकर/ सविता विकास अर्दाटकर/ पलंट नं. २०४, तिसरा मजला, दीयक निवास, पदच्य नगर, बागळे इस्टेट, पदच्य विद्यालय टाणे पश्चिम, पहाराष्ट्र, टाणे- ४००६०४/ (०५०००११९४५/ जब्द्रेडदुएम०२००७५)	फर्तर क्र. ३०२, ३रा मजला, डी विंग, ज्याम कुटीर, समेळपाडा दल मंदिरापुढे, समेळपाडा रोड, महाराप्ट्र, नालासोपास, पश्चिम- ४०१२०३	एप्रिल ६०,२०२२ इ. ५,८६,६३४/-	30/0
3.	श्लुनिकार अब्दुल चोबदार/ मुमतात्र चोपदार/ चो/२६. रूम नंबर २०४, अभिन्यो, सांती नगर, से. १०, पूरम नगर, मीग गेड, महाराष्ट्र, ठाले- ४०११०७/ (२४१००००१७८१/ मनुसंदर्शस्त्रहे०००५००३७०६)	कारेंट नंबर १००३, १०वा मजरात, वी विंग, बिन्डिंग भाग ची- ६. ला गाडेनिया सीएवएसएस, एमबीएससी एम्प्सडिज क्योंटसंबनळ, मीरा रोड पूर्व, महाराष्ट्र, टाग्ने-४०११०३	एप्रिल ३०,२०२२ इ. २३,७८,१९४/-	302
د.	जसनंतिमन भातीवात/ अमनदीपकोर बारवंतीमिग भातीवात/२०१, रेनकृमा होसिंग, दुने नामिक, आण्रा रोड, पूर्णा त्रिती पेट्रोल पंपाजवळ, भिवंडी, महागण्ट, छापे- ४२१३०२	पर्लेट क्रमांक ६०२, तिस्सा मजला, इमारत छ. ए-२, दोपलक्ष्मो रेसिडेन्सी, टाणे भिजंडी रोड, महासार, कल्याण पूर्व- ४२१३०६	में ०५,२०२२ इ. २०,४८,९३२/-	203
٠.	ज्यानंत्रर घोला विश्वा/ प्रेमशंत्रर घोला विश्वा/ में, मानकेराज मेंकेनिकल कर्मा/ मनेर का १८, प्रेम साम्र अपा., निवाद रोड, तेला देखा ऑफिशजबढ़, माझगाज, महाराद, मुंबर्ग- ४०००६ (१८८०००००१४३) चुडी प्रमुक्ताएग०००००००१४१३१) मोहन मधुकर धनवड़ी/ मुद्रिया चंद्रकात लॉपप्टी/ प्रीमारडी अपा., एम. १६, ऐगली, नवी	क्लॅर क्र. ३०३, ७गा मजला, सी विंग, फेड १, मीहन हराईदण, गोबेली रोड. जकान नाका/गरोश मंदिर बाजूला. महाराष्ट्र, फल्याण पश्चिम- ४२६ ३०६ फ्लॅर क्र. १०६. १ता मजला, विंग-जी, गोल्डन व्हेली.	मे ०५.२०२२ इ. १५,६७,०६३/-	50:
٥.	भारत भारतः प्रवाद प्रवाद प्रकार तायकः मानावा काराः, एतः ६६, एततः, नवा मूर्वाः, क्रिटिकेश्वाः हास्पिटलाकायः, महाराष्ट्रः, नवी मूर्वाः १००७०८/ (२१५,०००००६३४/ क्र्युबेटसुल्सएय००००६००३०२१७) मूर्वाभारत पारतोदरिल/ जीजा मुस्सीभारत/ वी ३०१ तिथा नंगतः विल्डिंगः, तिथा काराः	पत्तर क्र. (०५. १८६ पत्रता, १००० वा, पार्ट्य व्हार, सानिवली, सोनिवली जकर, गात्र, बदलासू-५., बरमाष्ट्र, उरहासस्था-४२१५०४ पत्तरे क्र. १०३, १ ला पत्रता, सी विंग, टाईप की, इमात	# 04.2022 #. 24.62.674/-	30/1
?.	भुस्तामारन प्रास्त्रहरूला मात्र पुरासायन वा इंग्ड मात्र नगरा माण्यान, मात्र करता माण्यास, एन्ड्र मार्डिन सिटी, बसाई पूर्व, महस्राप्त्र, ससई- ४०६ २०८/ (११०००००६७३०/ ज्युत्रेहरुहीएसभाव०००४०६०८४५ जरीम एन सरव्यद/ जानेद एन सरव्यद/ १०४, दुल्हान, ए चिल्डिंग, क्रांस मार्डन, मार्टरर	ऋ.२, निर्माणा आर्कड, सुनाभट्टी, फोटक प्रांपरींब, मानपाटी सेड, महाराष्ट्र, पालग्रर- ४०१४०४ फाँट ऋमांक ०१, नजमजला, दल्हन की ए सीएनएसएल.	म ०५,२०२२ इ. ८,१२,१८२/- मे ०५,२०२२	201
1.	पश्चिम, महागर्, उग्रेन ४०६ १०६/ (१४२००००(६१०) चुन्नेदर्णमंत्रीताय००००५६५००) नतानम सरकार/दुर्गा सरकार/सी ४६७, तानिया स्टिफिन, औत्रथा तंद्र नं २, महागर्,	क्रोम गार्डन जन्नज्ञ, वकोल स्ट्रीट, महाराष्ट्र, भारिर पूर्व- ४०१ १०५ पर्लंट में, ६०६, ६वा मजता, डी विंग, इमारत क्र. ६, सल्यम	T. 5,68, 110/-	38/
ν.	नालाभोपान- ४०१ २०३/ (१८८०००२४१२) स्पुतिहण्सएसएस०००४१९९७८४) नमीर अङ्गट/ ताहेरा बेगम नसीर अङ्गट/ व्ही-३०५, ३ मजला, बी. थिंग, न्यू शिवनेरी	टॉनर, रेन्ने कताशेड जनल, सेन्टर-V, विनय कॉस्प्लेक्स, निलेमोर, महाराष्ट्र, नालामोपता (पूर्व)- ४०१ २०९ फर्टेट ने५०४, ७वा मजला, वी विंग, त्यू शिवनेरी को. ऑप.	क. १७,८४,८०९/= मे ०५,२०२२	30/
4.	संव रोहिदास मार्ग, मुक्तंद्र, महागाप्त, मुंबई- ४०००१७ (२०१०००४१५४१/ व्युवेडबीओव्ही००००५०११९७१) विवेदम स्रोत कड/ स्रोत मार्कत कड/ चांत्री क्र. सी/१३, एलआयसी-॥, मे. क्र. ०१,	हाक्रसिंग सोसायटी निर्मिटंड, संसार हटिलजवल, धाराची, महागाद, मुंबर्ट-४०००१७ क्लंट जंबर १०१, शा मजला, ए विंग, गोर्शिश कॉम्प्लेकस	ह. १९,७२,७२०/= मे ४५,२०२२	20/
۲.	धिरको कर्तन्ती, कर्र्याची-१४०२१८, महाग्राप्त, ननी मुंबर्द- ४६०२०१/ (४८००१८७००/वसुकेश्रप्यतुष्म००००/५०१/५८४) पंकर बार्ट्य/ सक्तमा आर बार्ट्य/ रूप नंपर ८६, इंदिरा नगर, किमोर कुमार गांगुली मार्ग, सांबाह्य चूर्व, महाग्रप्ट, मुंबर्ट- ४०००४१/	सीएवएमएन, प्लॉट नंबर ३९, सेवरर ९, न्यू देंग्लिश स्कूल जवळ, महाराष्ट्र, कामोडे-४१०२०९ क्लॅट ऋ. ११४, दूसरा मजला, विंग- डी, मिरिजा भवन सीएवएमएस, वर्षदा नगरजवळ, केविन झॉम रोड, पाईटर पूर्व.	इ. ६,६१,२१४/- एप्रिस २८,२०२२	32/
3.	भागे, साताहरूत्र पूर्व, पहारापपु, मृबर्ड २००० रश्रे ((११,००० ६२११/वपुक्रेप्रसीयमध्याय००० १५०३६१८०) पंचन सिंग पस्ता / दिसी पंचन सन्ता / पसंद क्रमांक ६०१, प्रमास क्रमांक ही १, सदाकिनी विविद्या, मानसरीस पार्क, गेरीपाइस रोड, सलायसमार, कल्याण, महारापु,	सार्वण्यास्य, वर्यर नक्षत्रवन्न, कांत्रव क्राम सह, भाइरर पूच- महाराष्ट्र, तार्थ- ४०११०५ फर्टर क्र. ३०२, तिसा मजना, सी विंग, पावल जपार्टेंग्ट, एवआवडीसी सेंड, रिजनी अंटिनियाजनस्त, रहसर शहरड	ह. २०,०८,७४६/- एप्रिल २८,२०२२ ह. १५,१६,७०७/-	\$3/ 20
٤.	भरतास्त्रा वाग्यञ्ज, मानस्रायस्य प्रक्त, गाराणाञ्च राङ्, तारायस्याम्, क्रान्यान्, स्टान्युः, हाले ४२२३०४/ (०६९०००६९४७) सङ्ग्रह्महरूकेएलायाय्य०००६००८३३३ व्यक्तम भैलोट/ मीलादेवी पी भेलोट/ एलंट क्रमांक ची- ३०३, गातीचन इमारत् दिवालमन, यस्ति कारियम कांग्यनस्त्रा, माणिकस्त्र, ससर्व पश्चिम, महाराष्ट्र, पासधा-	एवजावडासा सङ्, रहरूसा आदारवाजगढ, रहरूस रहाड पूर्व, करूवाण परिचम, महाराष्ट्र, ठाणे- ४२२३०१ फर्टर वं. ५०१, ५वा मजला, वं विम, सरस्वती टॉक्स इंप्यमण्डल, प्रतीबंट पार्क, अमिश्रा पार्क जनक, मीरासंद	# 20,7077 # 20,7077 #, 75,75,54,44/-	11/
۹.	५०१२०२/ (१८५००००००१२९/अयूर्वेडव्हींआसआर०००५०२९१४५) प्रयोद स्त्रोत भारतेष्ठ/ प्रयासी संतीय आतेष्ठर/ प्रोती प्रयोध १६ सारीया कृता चात्र. देखी तथा, योगेन्सर भारत, तात्राचेच्या पूर्व, महाराष्ट्र, छाने- ४०१ २०९/ (०१५०००४४५) त्युवेडव्हीयाआय००००४००२६७५)	वृर्वं, महागप्त्र, दाणं- ४०११०५ पलंट वं, ५०२, ५वा मजला, ए विंग, जिल्हींग वं, १, ग्रेप्स टॉवर, बणवंत गीरव कॉम्प्स्तेसस, सब्हें नंबर १९१-१९७- २५१, ऐपल बिल्हिंग आणि पन पिएम्टा मन्दिप्तेससजबब,	एप्रिल २८,२०२२ १. ६,७३,०६४/-	११/ >o
٥.	पुण्तता धर्मा प्रवार/ फ्लंट ऋमांक सी/ ४०२, गोकुछ सत्संग इमाल, गोकुछ टाइनसिय, आगापी सेड, बोडीज, महाराष्ट्र, विस्त परिचम- ४०१ ३०३/	महाराष्ट्र, वालासेगास- पश्चिम-४०१२०३ क्लॅट इ. ४०३, ४था मङ्गा. ए विंग, गोकुट हेवन सीएनएसएस, सुलजीभाई मेहना शास्त्रेडवट, गोकुट	ष्प्रिल २८,२०२२ इ. २५,३८,२७५/-	31/
ş	(११.०००६६८/नदुरेडटाएस)साव०००५०३०३०१) सर्वेद्रप्रसाद कतुमाम गोरिसमा/ समरोश कतुमाम गोरिसमा/ फारेट क्रमांक मी/ए. भारत सम्त्री सोएवएस ति., मोदी गरेस्त गेड. भाईटर रेग्य स्टेशन जनज्ञ, साई बाबा गार्डन जनज्ञ. माहेद प्रतियम, महाराष्ट्र, टाफे- ४०६१०१/	टाऊनशिष, महामापू, बिसा (व) - ४०१३०३ पर्लेट क्र. १०३, १ता मजला, टी बिग, इमारत क्र. १, संबटर- ९, पारमनाथ नगरी, उमरोत्ती स्टेशनजबक, पूर्व, महासापू, पारसम्बट-४०१५०४	ष्प्रिल २८,२०२२ ४, ९,०२,६९३/-	31/
₹.	(११००००१२७/जबुळेडच्यीएमआव०००५०११५५८) सभाजीत बादव/जीताजीत यादव/सी-२१६, सार्ड नगर सीएचएस ति., गोडदेव फाटक सोड, भाईदर पूर्व, महाराष्ट्र, डार्च- ४०१ १०५/	डी- १०५, १सा घजला, ऱ्यास्त छ. ०६, पारस्ताथ नागी फेन - ०६, उमगेली, पोर्टमा, महाराष्ट्र, पारस्था- ४०६४०४	एप्रिल १८,२०२२ ४. ९.५२,५३८/-	35/
ŧ.	(७४५०००५८५२/बहुबेहरीएस५०००८५८१२७३) साईनाथ आर काटोळे/ मुहाता माईनाथ काटोळे/ १४४, घापळे संड, पोस्ट पडणा, ता. धिबंडी, पडणा पोलिस स्टेशनजवळ, महतापूर, पडणा-४२५१०२/	क्तरंट क्रमांक १०४, १ता मजना, विश्व ए, ए वी प्ताहत, वालिट च, शहापुर, रिटवाटा पूर्व, महागण्ड, डागेन ४२१६०१	ष्प्रिल २८,२०२२ इ. ११,६२,११८/-	06/
γ.	(०६६००००)१६) बहुद्रेडकेएलमाय २०००० २१३२२) अभिनेक आसिद् प्राध्याप / असिद् बुजान उपस्थात / से, अंजना आसिद उपस्थात / मस्ट प्रयाक में २०१, जी कृष्ण कुँन इसान, गरीनदास यहा, मानासोधारा पूर्व, संट अंदर्श प्रकृतकोत्रक, सहाराए, नासाराया पूर्व - ४०१ २०९,	पलंट फ्र. ३०३, ३रा मजला, ए विंग, इमारत फ्र. २, भी वृष्ण कुज मीएवएसएल, अंधीनी आंद्रेडचामामे, नॉगनदाम पाडा, मोरे, महाराष्ट्र, नालासोपासा (पूर्व)-४०१,२०१	एप्रिल २६,२०२२ २. १५,५९,५२०/-	130
٠.	(०१५००१६७३८/बयुझेडब्लीएमआय००००५०२४१६६) सुभाष एन भालेगव/ ज्योनी सुभाष भालेखव/ एन वं ६/५६६, गावर्ज नगर, ता. वाडा. बाह्य बाह्य पालच्य महासम्ब हागे-४६६३०३/	फ्लंट क्र. २०२, २स मञ्जा, विग-ए, चिन्डिंग क्र. ४, ब्रह्म सञ्जल, सिवाकी नगर जवज, महासन्द्र-४२१३०३	गप्रिल १६,२०२२ इ. ९,६७,२५६/-	20/
	(२६७००००२४०/चनुझेडडस्नुएए०००६५०६६६६५) सन् मोतीसम् चन्छल/लस्तिता सन् चन्छल/पोलीस क्वीटर प्रमांक २२, गोधनी संड, चननमञ्जू महाराष्ट्र चननका-४४५००४/	प्लर्टेर बंबा २०१. पूसरा मजाना गावजो रॅसिटेन्सी, लीहाग वायगास सत्र वण, बच्चमाळ जिल्हा- यथवणाळ, महाराष्ट्र, -४४५००१	गुप्रिल १९,२०२२ इ. ४,४०,६९१/-	00/
٥.	(१६४००००२०४८/बदुबेडयानसस्ती००००५०१३१८७) जन्ममा सभ्यस्या तेसमंदि/ मिल्या जयकृता सेत्समंदि/ द्वारा गोर्किराव सावर्थ स्टेट वेकसमोर, च्यू संक्षत्र सम्प डावकी रोट सहायप्टु अकोला ४८४००२/ (४९७०००४८५५/वदुबेटएअ०००००८५०१०८४५)	-४४५००६ मोत्रे अकोता, मध्ये छ. ६००, प्लांट छ. ६२-वी, माधुरी बामच्या मागे, महाराष्ट्र- ४४४००६	पवित १६,२०२२ इ. १,६०,३१५/-	31/
٤.	(१९६००००४८५) व्यवस्थानाव १००००५८८८ १५) भुसाम पेभारी बेसाणा (संसा भुसाम पेसाणा) १८७, बालाती सुपर मार्केट, वेडर वेथे, वंगेट नगर, पर्वार सेट, पहाणपु टाणे ४०६४००४/ (१९८०००४६८७/ववास्टरियाआम.०००५६१८४४)	सर्टेट क्र. १०३, १सा मज्या, जी जिम, ओम साई राम, यामरा रोड, नवली माने, दिवा स्वरंगण प्रकल्प, पालगर परिवय, महाराष्ट्र पालग्रन- ४०१ ४२४	হটিল ২১,২০২০ হ. ৬,6९,২५८/-	30/
۲.	संतोष विनायकराव देरापुष्ठ / विजया विनायक देशपुष्ठ द्वाग मंदिष प्रवार, संदर्भी नगर, हाककी रोह, गुम्म एजन्मी सिमेंट महाराष्ट्र अफोस्त ४८४००६ (०६७०००६६५६/क्युकेडएफेएल००००५८१४४४०)	फर्तर नंबर २०३, ३ग मजला, साई रेसिइन्सी, बसेग कोलवी, बेबता गेह, एवपी गॅस गीडाइन समोर, महासाद- ४४४>०२	एप्रिल २८,२०२२ म. ९,२७,३५७/-	26/ 20
0.	सूर्वभाव विद्यांचा शिद्रं/ वीरोण सूर्वभाव शिद्रं/ १०२/ ००१७ विधान मङ्गे, गर्वण इतिनिधर्मयस्या मार्ग, मातपुर गाव, मातपुर, आयोक नगर महाराष्ट्र नाधिक/ (०१९००००ऽ०६५/वृद्धोहरप्याएम००००५०११८१४)	फर्टर क्रमाब ०५, ३१ मजला, थी साई अपार्टमेंट, साजें क्र ९९/९ -वी, प्लॉर क्रमांक ९३ आणि ९४, प्रणसावच्या बाजूला, सोरी, धुव नक्षर महत्तपट्ट- ४२४०१ ३	स्प्रिल २८,२०२२ ६. २०,६८,२४०/-	34/
١.	र्शियंता राजेंद्र जनकाप/ राजेंद्र विषणताव जगकाप/ द्वारा राजा के पारील, प्लोट्र क्रमाफ १८, गेतना निवास, आर के नगर जवळ, अमळनेर महाराष्ट्र ४२४४९१ / (१४४००००१४५/क्युक्रेड्रोग्सरप्य-०००५००६८५१)	प्तारे प्र. ६३ ते १८/१३, जी प्रमाय ६३९९ (१सी/२वी, धी प्रमार महाराज नगर, मृंदद्वा नगर जवज्ञ, मृ. अनस्टनेर, महाराष्ट्र- ४१०४४१	एप्रिल २८,२०२२ १ ५,०६,३०२/-	50:
۹.	विक्रम राज्य निकाम (हमावाई शंक्य निकाम (एव-३२, पी-४६, ८, गाणेश चीक, स्टेट बीक, निहाको, महाराष्ट्र वाहाक ४२२००६/ (१९६०००८/५६/ क्यूनेशावनम्माराज्य०५५६६२६०)	धी आहेत संस्थानसम्बन्धः प्रति प्रति है। तह महताः विभागो, सरहे क्र १०११, जहात्रा पाइय नगः, श्री एव पुर गाविद माला, इरिस्तमाम संस्था, महिल्ल, महाराष्ट्र- ४२२००६	एप्रिस २८,२०२३ इ. ६,२८,३३०/-	20/
à.	गांगांची संस्थापात अंदारवात/अनुमाग गांगांची अंदारवात/वृक्षाते निवान, राजनः वाग, राज महिसारवात, महागानु, गारीद-१६६६०२ (६८८०००१५६०/वृद्धेदर्गानीआप०००६५०२४६६६)	एक्प्यू वं १-१६-१६२/१, प्यांत् वं १ भाग, दक्षिण एम, सब्दे वबर् १५, श्री एम वगा, अस्तुताबाद, एवला प्राथमिक साद्ये वच्छा, महाराष्ट्र, नदेशु-१६६०२ विशिष्ट वं १३० व्यक्ति वं १० सब्दे वं १००/१ वदनाव	एप्रिल २६, २८२२ १ ४,४६,६३४/-	30
	गारित पोहितम जाकूर संपत्र गोरित द्वाकुर सम्पत्न त्राम, बीक कोलमी, सिंग साट, अर्थ अरुपाए, (१६८०००६६८५) मुद्देश प्रतिक्रियाल-००५८६८५५) पुरुष प्रवेद किससी, प्रवेद विचानि प्राप्त-००६८६८५)	प्रोगीएन न, ६२३, पनोट्ट न ३४, सको न ८३०/१, नटलाल नगर, वीक कॉलनीजयळ, वाप्तळा रोड, बोण्यईवाडी, अवेजोगार्ड वि प्रोड, -४३६/१३ पनोट नवर- ८८३, तट मटला, मी विंग, सुलगी मानिच्या,	एडिल २६,२०२२ ४,२४,२६,८७६४-	30/
	पुन्तम् पनदः । तवाराः । पनदः । तवाराः । त्वारः । त्वारः । त्वारः । त्वारः । व्यारः । व्यारः । व्यारः । व्यारः व व्यामः, युद्धनतीः, दन धरित्रण्याः, अवस्थायं परिचामः प्रशासः, वाण-४१२००० / (११६००००११९४) । ज्युतंत्रपीयाधी०००४५६९८८८) ज्यानुदेश जी क्रीकी (महिता यामुदेश क्रीक्षां) । पनदे क्रमावः ३०१, ही विगः, महनागः पार्कः,	करा क्या- ००३, नव मत्यस, मा मान, हुलमा मानावा, इटल कॉलंड डब्बू, विद्यालाला, अवस्थाय परिवम, प्रशास, अवस्थाय- ११५५०१ सर्वेद्रक्रमांक २०५, शा महला, हो बिस, पट स. मबल पाक,	हिता ३८,३८३३ ३ ३४,३९,३४८/- हिन्ना ३८,३८४३	30/
5	प्रामुद्दव का कारता सावता प्रामुद्दव काषण) चन्द्र क्रमान्त ३०३, हा तम, सह्याय करू. प्राप्त व्हेलीकवळ, हेंद्रे पाडा, प्रहाणापु, बदलापुर पश्चिम= ४२६ ५०६)	स्तर् कृषाक १२४, १० स्टब्स, १०१४, ५७ स. स्वाग १४४. वेदुसहा, भारत कांत्रज जवल, कृतसाथ, सन्तराष्ट्र, क्टलाक्स परिवाम- १८४ ५१	# 12.50.503/-	201

दिनांक : जुन ०८, २०२२ टिकाण: महाराष्ट्र